



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 17—जून 23, 2006 (ज्येष्ठ 27, 1928)
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 17—JUNE 23, 2006 (JYAISTHA 27, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2006

सं. 301, दिनांक 24 मई 2006--अनुदेश 14/79 द्वारा यथाशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेवा

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान राज कुमार चौबे (एमएस-14428एक्स), आयोग की तिथि, 30 जनवरी 2002 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 30 जुलाई 2001 से दी जाएगी।

कप्तान विक्रान्त वी गडकरी (एमएस-14524एम), डीओसी, 17 फरवरी 2003 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 17 अगस्त 2002 से दी जाएगी।

कप्तान प्रशान्त कुमार सिंह चौहान (एमएस-14238एल), डीओसी, 15 मार्च 2001 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2000 से दी जाएगी (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान गिरीश कुमार पाण्डेय (एमएस-14499वाई), एएमसी, 12 फरवरी 2000

कप्तान एम के किंसिंगर मारिंग (एमएस-14521वाई), एएमसी, 15 फरवरी 2003

कप्तान अजय कुमार (एमएस-14669एक्स), एएमसी, 24 नवम्बर 2003

कप्तान शैलेन्द्र कुमार (एमएस-14767एक्स), एएमसी, 17 फरवरी 2004

कप्तान कुंज बिहारी प्रसाद (एमएस-14811डब्ल्यू), एएमसी, 29 मार्च 2004

कप्तान राजीव कुमार त्रिपाठी (एमएस-14229के), एएमसी, 12 मार्च 2001

कप्तान जयदेव टुडु (एमएस-14951एच), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान गगनदीप सिंह (एमएस-14954डब्ल्यू), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान अरुण कुमार शर्मा (एमएस-14955वाई), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान म्हस्के निलेश मधुकर (एमएस-14956एफ), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान धीरज कुमार (एमएस-14958एम), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान सुरजीत सिंह (एमएस-14959पी), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान अमित कुमार कोहली (एमएस-14961एम), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान मुकेश कुमार (एमएस-14962पी), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान बाबू बिजु (एमएस-14963एक्स), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान रवि शेखर हिरेमठ (एमएस-14964ए), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान अशोक कुमार (एमएस-14966एल), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान अनुभव अग्निहोत्री (एमएस-14967एन), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान श्रीनिवास जी (एमएस-14968डब्ल्यू), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान बेदी नोनिका जतेन्दर (एमएस-15005डब्ल्यू), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान मधुकर हरिभाई कांबले (एमएस-14891वाई), एएमसी, 05 अक्टूबर 2004

कप्तान तेली प्रभाकर तमन्ना (एमएस-14894एम), एएमसी, 05 अक्टूबर 2004

कप्तान विवेक सिंह गुलेरिया (एमएस-14982एच), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान योगेश विजय (एमएस-14983एल), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान यादवीर गर्ग (एमएस-14986वाई), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान सिद्धार्थ प्रसाद के एम (एमएस-14987एफ), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान संतोष कुमार जयसवाल (एमएस-14988के), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान राकेश कुमार एम आर (एमएस-14989एम), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान हेमन्त कुमार (एमएस-14990एफ), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान अजय कौशिक (एमएस-14991के), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान यशविन्द्र कुमार (एमएस-14992एम), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान गुरप्रीत राय (एमएस-14998एन), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान मानस रंजन पटनायक (एमएस-15000एक्स), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान नवीन कुमार शर्मा (एमएस-15003एल), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान प्रभात कुमार (एमएस-15008के), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान स्वीन (एमएस-15011के), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

लेफ्टिनेंट के पद पर (परख पर)

लेफ्टि. जफर इजराइल (एमएस-14934एच), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. इन्द्रा प्रकाश दुबे (एमएस-14935एल), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. अभिषेक कुमार गर्ग (एमएस-14936एन), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. अरविन्द सैमलटी (एमएस-14937डब्ल्यू), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. अमित कुमार श्रीवास्तव (एमएस-14938वाई), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. अंशु कुमार (एमएस-14939एफ), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. विजय कुमार पवार (एमएस-14940डब्ल्यू), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. अभिषेक राठोड़ (एमएस-14941वाई), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. प्रमोद सोलंकी (एमएस-14942एफ), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. पुनीत दीवान (एमएस-14943के), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. नेहा गोयल (एमएस-14944एम), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. अंकुर शर्मा (एमएस-14945पी), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. जागृति वर्मा (एमएस-14946एक्स), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. कमलप्रीत सिंह (एमएस-14947ए), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. भवेश टलेरा (एमएस-14914पी), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. वाराकुटी मल्लिका (एमएस-14915एक्स), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. श्यामदत्त झारिया (एमएस-14916ए), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. मोहम्मद अनास मजहर अजिज़ (एमएस-14917एच), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. मीनु डांगी (एमएस-14920एच), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. रमिन्द्रपाल सिंह चीमा (एमएस-14921एल), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. सुमीत कुमार अग्रवाल (एमएस-14922एम), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. इमरान मेंहदी (एमएस-14923डब्ल्यू), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. अवनीश कुमार (एमएस-14924वाई), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. खुशबू (एमएस-14926के), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. गुरवीन वराईच (एमएस-14929एक्स), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. विनोद कुमार साहु (एमएस-14930एम), एएमसी, 21 फरवरी-2005

लेफ्टि. दुर्गेश कुमार शर्मा (एमएस-14931पी), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. शैलेश भोगरा (एमएस-14932एक्स), एएमसी, 21 फरवरी 2005

लेफ्टि. अखिलेश कुमार मिश्रा (एमएस-14933ए), एएमसी, 21 फरवरी 2005

यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

फ्ला. लेफ्टि. के पद पर (परख पर)

फ्ला. लेफ्टि. प्रशान्त दत्ता (एमएस-14631एन)/(एफ-26936), एएमसी, 24 अप्रैल 2003

फ्ला. लेफ्टि. राजेश्वरी के ए (एमएस-15057एम)/(एफ-28368), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

फ्ला. लेफ्टि. बबल चौधरी (एमएस-15058पी)/(एफ-28371), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

फ्ला. लेफ्टि. विशाल जरेवाल (एमएस-15063ए)/(एफ-28376), एएमसी, 19 अप्रैल 2005

फ्ला. लेफ्टि. निम धीरज कुमार पूरनचंद (एमएस-15081एच)/(एफ-28380), एएमसी, 17 मई 2005

फ्ला. लेफ्टि. रमनजीत सिंह अकल (एमएस-15082एल), एएमसी, 17 मई 2005

फ्ला. लेफ्टि. के शंकर रेड्डी (एमएस-15083एन), एएमसी, 17 मई 2005

फ्ला. लेफ्टि. विनोद सी एन (एमएस-15084डब्ल्यू), एएमसी, 17 मई 2005

फ्ला. लेफ्टि. अतुल कुमार सिंह (एमएस-15085वाई), एएमसी, 25 जुलाई 2005

फ्ला. लेफ्टि. मनीष कुमार सिंह (एमएस-14905एन)/(एफ-27668)/एएमसी, 04 दिसम्बर 2004

फ्ला. लेफ्टि. यातेन्द्र कुमार चौधरी (एमएस-14948एच)/(एफ-27664), एएमसी, 05 अक्टूबर 2005

फ्ला. लेफ्टि. सुरेन्द्र कुमार (एमएस-15022डब्ल्यू)/(एफ-28373), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

फ्ला. लेफ्टि. भावना चावला (एमएस-15023वाई)/(एफ-28374), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

फ्ला. लेफ्टि. अन्धु चेलियन आर (एमएस-15024एफ)/(एफ-28367), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

फ्ला. लेफ्टि. मोहन प्रिया एन (एमएस-15025के)/(एफ-28369), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

फ्ला. लेफ्टि. हरि गुरिमंदिर जे बी पी एस डार्लिंग (एमएस-15026एम)/(एफ-28372), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

फ्ला. लेफ्टि. तिरूमूर्ति एन (एमएस-15053डब्ल्यू)/(एफ-27685), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

फ्ला. लेफ्टि. आलोक कुमार गुप्ता (एमएस-15055एफ)/(एफ-27682), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

फ्लाईंग ऑफिसर के पद पर (परख पर)

फ्ला. ऑफिसर हरमीत सिंह गुरुंग (एमएस-14918एल), एएमसी, 21 फरवरी 2004

फ्ला. ऑफिसर अमरिता परमार (एमएस-14927एम), एएमसी, 21 फरवरी 2005

फ्ला. ऑफिसर गौरव अत्री (एमएस-14928पी) एएमसी, 21 फरवरी 2005

सर्जन सब लेफ्टी. के पद पर (परख पर)

सर्जन सब लेफ्टी अमित कुमार (एमएस-14860-वाई), एएमसी, 22 सितम्बर 2004

सर्जन सब लेफ्टी सिद्धार्थ गरेकर (एमएस-14861-एफ), एएमसी, 22 सितम्बर 2004

सर्जन सब लेफ्टी. शिशिर गुप्ता (एमएस-14866-ए), एएमसी,
22 सितम्बर 2004

सर्जन सब लेफ्टी. सिद्धार्थ शेहेरोवत (एमएस-14867-एच), एएमसी,
22 सितम्बर 2004

सर्जन सब लेफ्टी. अजय कुमार (एमएस-14872-एन), एएमसी,
22 सितम्बर 2004

सर्जन सब लेफ्टी. सुधानी पवन कुमार (एमएस-14873-डब्ल्यू),
एएमसी, 22 सितम्बर 2004

सर्जन सब लेफ्टी. विवेक सचिन (एमएस-14874-वाई), एएमसी,
22 सितम्बर 2004

सर्जन सब लेफ्टी. मनिष गुलिया (एमएस-14875-एफ), एएमसी,
22 सितम्बर 2004

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

निदेशक स.से.चि.से. (कार्मिक)

सेना शाखा

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

सं. 302, दिनांक 22 मई 2006—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ
करते हैं।

सूबेदार लिपिक (जी डी)

नायब सूबेदार सतपाल (जेसी-641799एफ), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार गुमान सिंह यादव (जेसी-641794एच), 01 सितम्बर
2004

नायब सूबेदार सत्तवाजी (जेसी-641796एन), 05 सितम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सतीश चन्द्रा शर्मा (जेसी-641793ए), 01 सितम्बर
2005

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-641795एल), 15 सितम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सूबे सिंह राठी (जेसी-641903के), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार ए रोबर्ट वैटरमैन (जेसी-641665एच), 27 अगस्त 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 जून 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सुर्जन (जेसी-641791पी), 12 सितम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बिद्या राम (जेसी-641904एम), 20 सितम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम धन (जेसी-641797डब्ल्यू), 20 सितम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-641800एल), 03 अक्टूबर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार दीन दयाल (जेसी-641802डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार श्री कान्तन नायर वी (जेसी-641905पी), 01 अक्टूबर
2005

नायब सूबेदार अनिल कुमार सिंह (जेसी-641810पी), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार जय लाल (जेसी-641907ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राजेश कुमार सिंह (जेसी-641960एल), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार दीपक शर्मा (जेसी-641110एफ), 01 अक्टूबर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
28 जून 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार प्रेम लाल सिंघल (जेसी-641814एल), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार ओमकार सिंह (जेसी-641805के), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार रामबीर (जेसी-641808एक्स), 08 नवम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बलवान सिंह (जेसी-641809ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार वाशिम अहमद खान (जेसी-641813एच), 02 नवम्बर
2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार तुक्काराम सी (जेसी-641910ए), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार पटनायक (जेसी-641815एन), 01 दिसम्बर
2005

नायब सूबेदार अशोक कुमार वर्मा (जेसी-641908एच), 01 दिसम्बर
2005

नायब सूबेदार मंगल सिंह भदौरिया (जेसी-641816डब्ल्यू), 01 दिसम्बर
2005

नायब सूबेदार गोपाल सिंह शेखावत (जेसी-641817वाई), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार दर्शन कुमार (जेसी-642185एल), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार रंजन कुमार डे (जेसी-641818एफ), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार कृष्णा चन्द (जेसी-641909एल), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार नरैन चन्दर बरमन (जेसी-641917के), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार थंकापन ए जी (जेसी-641918एम), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार राजाराम सिंह (जेसी-641919पी), 02 जनवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रविन्दर सिंह (जेसी-641789एक्स), 28 दिसम्बर 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सुधाकरन पी (जेसी-641911एच), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-641912एल), 02 जनवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार अजय कुमार वर्मा (जेसी-641920के), 02 जनवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार शिव कुमार (जेसी-641921एम), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-641915वाई), 21 जनवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बलराज सिंह दहिया (जेसी-641922पी), 18 जनवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सी विजय कुमार (जेसी-641923एक्स), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार नगेन्द्रा प्रसाद सिंह (जेसी-641961एन), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-641925एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार बेन्द्रे शिवालिंग पान्डूरंग (जेसी-641924ए), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार सन्तोश कुमार कटोच (जेसी-642316एल), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार जयप्रकाशन पी (जेसी-641819के), 10 फरवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम चन्द्र वर्मा (जेसी-641962डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार राजिन्दर पाल सिंह (जेसी-641963वाई), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार शारदा बक्श सिंह (जेसी-641964एफ), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार लिपिक (जी डी)

हवलदार रामा नन्द सिंह (सं. 6379012एक्स अब जेसी-663531के), 01 सितम्बर 2005

हवलदार रामा चन्द्रा बारीक (सं. 6379028एच अब जेसी-663532एम), 01 सितम्बर 2005

हवलदार बिमल चन्द्रा बरुआ (सं. 6379063एल अब जेसी-663533पी), 01 सितम्बर 2005

हवलदार बलकार सिंह (सं. 6379016एन अब जेसी-663541एन), 01 सितम्बर 2005

हवलदार गुरदीप सिंह (सं. 6379099के अब जेसी-663542डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

हवलदार उपेन्द्रा कुमार (सं. 6379097वाई अब जेसी-663632एक्स), 23 सितम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार दिलवर सिंह (सं. 6379101डब्ल्यू अब जेसी-663633ए), 18 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार राज सिंह (सं. 6378546डब्ल्यू अब जेसी-663634एच), 18 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 6379038एम अब जेसी-663635एल), 16 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार लखविन्दर सिंह (सं. 6377241के अब जेसी-663636एन), 10 नवम्बर 2005 *

- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार उनीकृष्णन अचारी पी (सं. 6379007एम अब जेसी-663637डब्ल्यू), 14 नवम्बर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार श्री प्रसाद यादव (सं. 6376632एच अब जेसी-663638वाई), 16 नवम्बर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार शिवा राजन के के (सं. 6378336एच अब जेसी-663639एफ), 16 नवम्बर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार सुरेश कुमार (सं. 6379105एम अब जेसी-663640डब्ल्यू), 10 नवम्बर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार जोश परमादाथील कुरियन (सं. 6378907के अब जेसी-663641वाई), 10 नवम्बर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार जय भगवान (सं. 6378937एफ अब जेसी-663642एफ), 01 नवम्बर 2005
- हवलदार ए बी शिवा कुमार (सं. 6378897एल अब जेसी-663643के), 17 नवम्बर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार हरे कृष्ण सिंह (सं. 6375551डब्ल्यू अब जेसी-663644एम), 23 नवम्बर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार सम्पत सिंह (सं. 6378192वाई अब जेसी-663655वाई), 01 नवम्बर 2005
- हवलदार जिऊत सिंह यादव (सं. 6377056डब्ल्यू अब जेसी-663656एफ), 06 दिसम्बर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार वी कृष्ण (सं. 6378576एन अब जेसी-663657के), 02 दिसम्बर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार बाबू राजन के टी (सं. 6378918डब्ल्यू अब जेसी-663658एम), 01 अक्टूबर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाएगी)
- हवलदार एम डी सागीर (सं. 6378891के अब जेसी-663659पी), 28 नवम्बर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाएगी)
- हवलदार गौरी शंकर पान्डा (सं. 6386069पी अब जेसी-663660के), 29 नवम्बर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार अजय वीर सिंह (सं. 6378453एफ अब जेसी-663661एम), 01 दिसम्बर 2005
- हवलदार ज्ञान प्रकाश (सं. 6375698एम अब जेसी-663662पी), 01 दिसम्बर 2005
- हवलदार अमी लाल (सं. 6378632एफ अब जेसी-663663एक्स), 01 दिसम्बर 2005
- हवलदार जसवंत सिंह (सं. 6379127एल अब जेसी-663664ए), 01 दिसम्बर 2005
- हवलदार यातीन्द्रा नाथ यादव (सं. 6379144एल अब जेसी-663665एच), 01 दिसम्बर 2005
- हवलदार कौशल किशोर गिरी (सं. 6378934एन अब जेसी-663722वाई), 22 दिसम्बर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)
- हवलदार घन श्याम गिरी (सं. 6379130एच अब जेसी-663723एफ), 01 दिसम्बर 2005
- हवलदार नरेश चन्द (सं. 6379133वाई अब जेसी-663724के), 08 दिसम्बर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)
- हवलदार राम गोपाल (सं. 6378134पी अब जेसी-663725एम), 02 दिसम्बर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)
- हवलदार मनोहरन (सं. 6379100एन अब जेसी-663726पी), 26 दिसम्बर 2005 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार शरत सिंह तोमर (सं. 6379143एच अब जेसी-663727एक्स), 03 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार प्रकाशन पी (सं. 6371843डब्ल्यू अब जेसी-663728ए), 01 जनवरी 2006

हवलदार चन्द्र मोहन (सं. 6379136एम अब जेसी-663729एच), 01 जनवरी 2006

हवलदार कृष्णा चन्द्रा सिन्कु (सं. 6379137पी अब जेसी-663730एक्स), 02 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक प्रसाद खान्त्रियाल (सं. 6379153एम अब जेसी-663731ए), 01 जनवरी 2006

हवलदार बलवन्त सिंह रावत (सं. 6376531पी अब जेसी-663732एच), 04 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बिपिन चन्द्रा मामग ई (सं. 6379155एक्स अब जेसी-663733एल), 02 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार महेन्द्रा प्रसाद (सं. 6379154पी अब जेसी-663821एफ), 01 जनवरी 2006

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 6377488एल अब जेसी-663822के), 31 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार गौरी शंकर सिंह (सं. 6379156ए अब जेसी-663823एम), 21 जनवरी 2006

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार बासदेव तिवारी (सं. 6379181एल अब जेसी-663824पी), 01 फरवरी 2006

हवलदार मेवालाल चौहान (सं. 6379173ए अब जेसी-663825एक्स), 01 फरवरी 2006 *

हवलदार एम चिन्माराज (सं. 6378993ए अब जेसी-663826ए), 04 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार शशि प्रकाश राय (सं. 6379158एल अब जेसी-663827एच), 02 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जय भगवान (सं. 6379169एक्स अब जेसी-663878डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

हवलदार राम भूल सिंह (सं. 6379191एच अब जेसी-663879वाई), 01 मार्च 2006

हवलदार राम प्रकाश यादव (सं. 6379148एफ अब जेसी-663880एन), 01 मार्च 2006

हवलदार लक्ष्मण प्रसाद (सं. 6379542एम अब जेसी-663881डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 6379159एन अब जेसी-663919पी), 02 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जयन्त सिंह (सं. 6379184एम अब जेसी-663920के), 01 मार्च 2006

हवलदार गुरुबच्चन सिंह (सं. 6379608एफ अब जेसी-663921एम), 03 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एम टी)

हवलदार राज किशोर सिंह (सं. 13885584एम अब जेसी-663472एच), 03 अगस्त 2005 *

हवलदार बबन तिवारी (सं. 13885156एन अब जेसी-663473एल), 01 जुलाई 2005 *

हवलदार भृगुनाथ सिंह (सं. 13888881एल अब जेसी-663474एन), 01 अगस्त 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बिसन सिंह (सं. 13889529एल अब जेसी-663475डब्ल्यू), 10 अगस्त 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 28 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राम प्रकाश अवस्थी (सं. 13886241एच अब जेसी-663476वाई), 01 अगस्त 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार नमो नारायण त्रिपाठी (सं. 13886314केअब जेसी-663477एफ), 27 जुलाई 2005*

हवलदार अजीत सिंह (सं. 13886337एल अब जेसी-663478के), 25 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 28 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राजु एम (सं. 13886374वाई अब जेसी-663479एम), 26 जुलाई 2005*

हवलदार रामाधर प्रसाद (सं. 13890141पी अब जेसी-663480एफ), 08 अगस्त 2005*

हवलदार कौशल किशोर (सं. 13890363केअब जेसी-663481के), 25 जुलाई 2005*

हवलदार राम चन्द्र दास (सं. 13890763डब्ल्यू अब जेसी-663482एम), 30 जुलाई 2005*

हवलदार राज किशोर यादव (सं. 13885432एल अब जेसी-663483पी), 26 जुलाई 2005*

हवलदार कल्याण सिंह (सं. 13889900एक्स अब जेसी-663484एक्स), 27 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार कुन्दन सिंह (सं. 13889513एच अब जेसी-663485ए), 23 जुलाई 2005*

हवलदार ईश्वर दयाल (सं. 13890839एल अब जेसी-663486एच), 27 जुलाई 2005*

हवलदार सुकुमार विश्वास (सं. 13887123एफ अब जेसी-663487एल), 26 जुलाई 2005*

हवलदार धरम वीर सिंह दहिया (सं. 13887149डब्ल्यू अब जेसी-663488ए), 26 जुलाई 2005*

हवलदार राम अवतार (सं. 13890896एम अब जेसी-663489डब्ल्यू), 06 अगस्त 2005*

हवलदार सुरेश चन्द्र मिश्र (सं. 13890912वाई अब जेसी-663490एल), 30 जुलाई 2005*

हवलदार रघुवर दयाल (सं. 13890926वाई अब जेसी-663491एन), 30 जुलाई 2005*

हवलदार लल्लन शर्मा (सं. 13890993केअब जेसी-663492डब्ल्यू), 03 अगस्त 2005*

हवलदार शिव नाथ सिंह (सं. 13887388एल अब जेसी-663493वाई), 30 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हीरा लाल प्रजापति (सं. 13887432एफ अब जेसी-663494एफ), 01 अगस्त 2005*

हवलदार जगत नारायण सविता (सं. 13891064एक्स अब जेसी-663495के), 27 जुलाई 2005*

हवलदार शेर बहादुर सिंह (सं. 13891283वाई अब जेसी-663496एम), 30 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राम किशोर यादव (सं. 13891309एच अब जेसी-663497पी), 01 अगस्त 2005*

हवलदार इस्लाम मोहम्मद (सं. 13889596वाई अब जेसी-663498एक्स), 01 अगस्त 2005

हवलदार हवा सिंह (सं. 13885579एफ अब जेसी-663499ए), 16 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 16 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अनुप सिंह (सं. 13886204पी अब जेसी-663500के), 01 अगस्त 2005

हवलदार अर्जुन प्रसाद मोर्या (सं. 13891181एच अब जेसी-663501ए), 01 अगस्त 2005

हवलदार दुरविजय सिंह (सं. 13894017एल अब जेसी-663502पी), 01 अगस्त 2005

हवलदार राम रतन (सं. 13887808ए अब जेसी-663503एक्स), 01 अगस्त 2005

हवलदार धन्ना राम (सं. 13887827एल अब जेसी-663504ए), 01 अगस्त 2005

हवलदार दिनेश कुमार शुक्ला (सं. 13891350वाई अब जेसी-663505एच), 01 अगस्त 2005

हवलदार राम गुलाप चौधरी (सं. 13891409एन अब जेसी-663506एल), 05 अगस्त 2005*

हवलदार सीता राम सिंह (सं. 13886127एल अब जेसी-663507एन), 01 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मुन्नी लाल (सं. 13886941डब्ल्यू अब जेसी-663508डब्ल्यू), 09 अगस्त 2005

हवलदार प्रयाग प्रसाद (सं. 13890698एफ अब जेसी-663509वाई), 01 अगस्त 2005

हवलदार सन्त राम (सं. 13891200एच अब जेसी-663510एन), 01 अगस्त 2005

हवलदार लाल सिंह (सं. 13887486एल अब जेसी-663511डब्ल्यू),
01 अगस्त 2005

हवलदार अजय कुमार चौधरी (सं. 13890685के अब जेसी-663512वाई), 01 अगस्त 2005

हवलदार सोबरन सिंह (सं. 13885766ए अब जेसी-663513एफ),
02 अगस्त 2005*

हवलदार सतेन्द्र सिंह नेगी (सं. 13891738के अब जेसी-663514के),
02 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सतीश चन्दर (सं. 13891739एम अब जेसी-663515एम),
01 अगस्त 2005

हवलदार शिव राम शर्मा (सं. 13891265डब्ल्यू अब जेसी-663516पी),
01 अगस्त 2005

हवलदार राजेन्द्र सिंह खैरा (सं. 3382486एच अब जेसी-663517एक्स),
04 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बाल किशन सैनी (सं. 13891522एच अब जेसी-663518ए),
04 अगस्त 2005*

हवलदार सिन्धवा स्मेश भीखा भाई (सं. 13891018एच अब जेसी-663519एच), 01 अगस्त 2005

हवलदार प्रतुल पन्डित (सं. 13889068पी अब जेसी-663520एक्स),
02 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार विश्राम सिंह (सं. 13883658एक्स अब जेसी-663555एन),
20 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सूर्य बन्हा सिंह (सं. 13890872एच अब जेसी-663556डब्ल्यू),
14 अगस्त 2005*

हवलदार बेचन राम (सं. 13891002एक्स अब जेसी-663557वाई),
03 अगस्त 2005*

हवलदार हरपाल (सं. 13887376डब्ल्यू अब जेसी-663558एफ),
14 अगस्त 2005*

हवलदार राम लोचन पान्डेय (सं. 13891275ए अब जेसी-663559के),
24 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 13890976के अब जेसी-663560वाई),
01 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सीता राम (सं. 13891205एफ अब जेसी-663561एफ),
01 अगस्त 2005

हवलदार जीवन सिंह रावत (सं. 13887484ए अब जेसी-663562के),
01 अगस्त 2005

हवलदार बाबू लाल यादव (सं. 13891256पी अब जेसी-663563एम),
08 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हीरा लाल यादव (सं. 13891403एम अब जेसी-663564पी),
01 अगस्त 2005

हवलदार बेचा लाल भगत (सं. 13891426एन अब जेसी-663565एक्स), 31 अगस्त 2005*

हवलदार राम कुमार (सं. 13897349एम अब जेसी-663566ए),
10 अगस्त 2005*

हवलदार जुनास येपनो (सं. 13894361ए अब जेसी-663567ए),
19 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हरचरन लाल (सं. 13891134एफ अब जेसी-663568एल),
01 अगस्त 2005

हवलदार लखबीर सिंह (सं. 13887152डब्ल्यू अब जेसी-663569एन),
01 अगस्त 2005

हवलदार रघुवर दयाल (सं. 13897078एन अब जेसी-663570एच),
19 अगस्त 2005*

हवलदार राम लखन सिंह (सं. 13891689एम अब जेसी-663571एल),
19 अगस्त 2005*

हवलदार अशोक कुमार शर्मा (सं. 13889739एन अब जेसी-663572एन), 19 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राज कुमार जायसवाल (सं. 13888344ए अब जेसी-663573डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005*

हवलदार सत पाल (सं. 13885898एन अब जेसी-663574वाई),
22 अगस्त 2005*

हवलदार महादेव गडिया (सं. 13887012के अब जेसी-663575एफ),
22 अगस्त 2005*

हवलदार सतेन्दर सिंह (सं. 13883492एफ अब जेसी-663576के),
15 सितम्बर 2005 *

हवलदार कन्हैया लाल (सं. 13885551एफ अब जेसी-663577एम),
30 सितम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार दामोदर प्रसाद (सं. 13882765एम अब जेसी-663578पी),
19 सितम्बर 2005 *

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 13894029ए अब जेसी-663579एक्स),
18 सितम्बर 2005 *

हवलदार विजय तश्वर तिवारी (सं. 13884507वाई अब
जेसी-663580एम), 08 सितम्बर 2005 *

हवलदार कृष्णा चन्द्र (सं. 13888845ए अब जेसी-663581पी),
19 सितम्बर 2005 *

हवलदार लैश राम तोम्बा सिंह (सं. 13889628डब्ल्यू अब
जेसी-663582एक्स), 21 सितम्बर 2005 *

हवलदार जगदीश गिरी (सं. 13891091एफ अब जेसी-663583ए),
14 सितम्बर 2005 *

हवलदार कमला राय (सं. 13887497एक्स अब जेसी-663584एच),
08 सितम्बर 2005 *

हवलदार भरत प्रसाद चौरसिया (सं. 13891239पी अब
जेसी-663585एल), 23 सितम्बर 2005 *

हवलदार राम कुमार (सं. 13885546डब्ल्यू अब जेसी-663586एन),
14 सितम्बर 2005 *

हवलदार महेश्वर मिश्रा (सं. 13886525एम अब जेसी-663587डब्ल्यू),
17 सितम्बर 2005 *

हवलदार रसूमानी एम (सं. 13890972एन अब जेसी-663588वाई),
15 सितम्बर 2005 *

हवलदार रत्नेश्वर बरुआ (सं. 13883859एन अब जेसी-663589एफ),
15 सितम्बर 2005 *

हवलदार रामा चन्द्रन के के (सं. 13885462एच अब
जेसी-663590डब्ल्यू), 16 सितम्बर 2005 *

हवलदार बागमारे जनार्धन जय राम (सं. 13883162एच अब
जेसी-663591वाई), 20 सितम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार यू एम राव (सं. 13889050वाई अब जेसी-663592एफ),
01 सितम्बर 2005

हवलदार कैलाश किशोर (सं. 13883143एक्स अब जेसी-663593ए),
15 सितम्बर 2005 *

हवलदार राम पाल सिंह (सं. 13891755के अब जेसी-663594एम),
06 सितम्बर 2005 *

हवलदार उमेश चन्द्र (सं. 13890781एन अब जेसी-663595पी),
06 सितम्बर 2005 *

हवलदार सुखवीर सिंह (सं. 13884260पी अब जेसी-663596एक्स),
16 सितम्बर 2005 *

हवलदार राम सागर सिंह (सं. 13886119एम अब जेसी-663597ए),
19 सितम्बर 2005 *

हवलदार दिलीप कुमार (सं. 13890717एफ अब जेसी-663598एच),
14 सितम्बर 2005 *

हवलदार उमेश कुमार (सं. 13894161ए अब जेसी-663599एल),
16 सितम्बर 2005 *

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 13882870एच अब जेसी-663600पी),
20 सितम्बर 2005 *

हवलदार धीर सिंह (सं. 13889936डब्ल्यू अब जेसी-663601एक्स),
13 सितम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार केशव दत्त (सं. 13889514एल अब जेसी-663602ए),
01 सितम्बर 2005 *

हवलदार देव मुनि पाल यादव (सं. 13889224एन अब
जेसी-663603एच), 05 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार कमला प्रासाद बारबर (सं. 13884467पी अब
जेसी-663678ए), 26 दिसम्बर 2005 *

हवलदार हरेन्द्र सिंह (सं. 13884639वाई अब जेसी-663679एच),
27 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बजेन्द्र पान्डे (सं. 13882005के अब जेसी-663680एक्स),
26 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार स्वपन विश्वास (सं. 13885426एक्स अब जेसी-663681ए,
15 दिसम्बर 2005 *

हवलदार रामा शंकर यादव (सं. 13885595वाई अब
जेसी-663682एच), 18 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 22 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सत्यपाल सिंह चौहान (सं. 13886290एल अब जेसी-663683एल), 28 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार वी वेन्कटा स्वामी (सं. 13888558डब्ल्यू अब जेसी-663684एन), 16 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 02 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सियो नारायण सैनी (सं. 13887100ए अब जेसी-663685एन), 12 दिसम्बर 2005*

हवलदार शैलेन्द्र कुमार सिंह (सं. 13890849पी अब जेसी-663686एफ), 29 अक्टूबर 2005*

हवलदार राम जनम यादव (सं. 13885616के अब जेसी-663687एफ), 27 जुलाई 2005*

हवलदार वेनू कुमार नायर जी (सं. 13891267एफ अब जेसी-663688के), 18 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार तारा चन्द (सं. 13891216एन अब जेसी-663689एम), 28 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार नन्द किशोर (सं. 13891036एल अब जेसी-663690एफ), 01 नवम्बर 2005*

हवलदार वालिस्टर सिंह (सं. 13887611के अब जेसी-663691के), 24 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 20 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पूरहू राजभर (सं. 13891434एम अब जेसी-663692एम), 22 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार श्याम बिहारी राय (सं. 13883136एफ अब जेसी-663693पी), 31 अक्टूबर 2005*

हवलदार विश्वनाथन पी एम (सं. 13889979एल अब जेसी-663694एक्स), 24 सितम्बर 2005*

हवलदार बबन सिंह (सं. 13885187एन अब जेसी-663695ए), 14 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार निशी कुमार दास (सं. 13886268ए अब जेसी-663696एच), 17 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार कृष्णा (सं. 13894277डब्ल्यू अब जेसी-663697एल), 21 अक्टूबर 2005*

हवलदार कृष्णा सुलेभावीकर (सं. 13885631वाई अब जेसी-663698एन), 14 सितम्बर 2005*

हवलदार जुबैर अहमद (सं. 13886691ए अब जेसी-663699डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2005*

हवलदार धर्मवीर सिंह (सं. 13891330एल अब जेसी-663700ए), 01 अक्टूबर 2005*

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 13889916एच अब जेसी-663701एच), 02 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बिजय सिंह (सं. 13884737वाई अब जेसी-663702एल), 03 दिसम्बर 2005*

हवलदार राम चन्द्र (सं. 13888121एच अब जेसी-663703एन), 02 दिसम्बर 2005*

हवलदार विमल कुमार निखारे (सं. 13890714एन अब जेसी-663704डब्ल्यू), 06 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार केशव दयाल (सं. 13891363डब्ल्यू अब जेसी-663705वाई), 28 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13886355एन अब जेसी-663706एफ), 24 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार धाना पति मन्डल (सं. 13889183पी अब जेसी-663707के), 01 नवम्बर 2005*

हवलदार कनवारी लाल मीना (सं. 13886680एन अब जेसी-663708एम), 22 दिसम्बर 2005*

हवलदार निजामुद्दीन (सं. 13886394ए अब जेसी-663709पी), 27 नवम्बर 2005*

हवलदार रोहितास (सं. 13887257ए अब जेसी-663710के), 24 नवम्बर 2005*

हवलदार प्रशान्त मुखर्जी (सं. 14808414वाई अब जेसी-663711एम),
13 दिसम्बर 2005 *

हवलदार सुनील तिकी (सं. 13888985एम अब जेसी-663712पी),
03 दिसम्बर 2005 *

हवलदार राम वकील (सं. 13891130पी अब जेसी-663713एक्स),
05 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार देवासिष हलदर (सं. 13886802ए अब जेसी-663714ए),
19 दिसम्बर 2005 *

हवलदार पारस नाथ (सं. 13887329वाई अब जेसी-663715एच),
15 दिसम्बर 2005 *

हवलदार खियाली राम शर्मा (सं. 13879286ए अब जेसी-663716एल),
21 दिसम्बर 2005 *

हवलदार सी मुर्गेसन (सं. 13879880एफ अब जेसी-663717एन),
21 दिसम्बर 2005 *

हवलदार सत्य नरायण मरुत राव (सं. 13890395एम अब
जेसी-663718डब्ल्यू), 15 दिसम्बर 2005 *

हवलदार नरेन्द्र कुमार (सं. 13887801डब्ल्यू अब जेसी-663719वाई),
20 दिसम्बर 2005 *

हवलदार फूल कुमार गोस्वामी (सं. 13887430एन अब
जेसी-663720एन), 16 दिसम्बर 2005 *

हवलदार कुम्भार विथल जनेबा (सं. 13885629एफ अब
जेसी-663721डब्ल्यू), 12 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बाबू लाल (सं. 13885424एन अब जेसी-663152एन),
20 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

हवलदार विजय कुमार प्रभु नाथ तिवारी (सं. 13883849एम अब
जेसी-663760पी), 08 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार जगत कुमार राय (सं. 13884328एल अब
जेसी-663761एक्स), 29 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राम धवन (सं. 13877706डब्ल्यू अब जेसी-663762ए),
18 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राज कुमार (सं. 13881699एन अब जेसी-663763एच),
28 दिसम्बर 2005 *

हवलदार डानडे वेन्कटेश्वारा राव (सं. 13885647के अब
जेसी-663764एल), 18 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बाबु लाल यादव (सं. 13886304ए अब जेसी-663765एन),
15 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 22 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राम मिलन यादव (सं. 13885968एफ अब
जेसी-663766डब्ल्यू), 31 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 29 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार उमेद सिंह (सं. 13886302पी अब जेसी-663767वाई),
13 जनवरी 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 20 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार किशन प्रसाद शाहु (सं. 13891357एच अब
जेसी-663768एफ), 19 जनवरी 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 22 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार कुरार पाल सिंह (सं. 13885905वाई अब जेसी-663769के),
01 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 20 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मुहम्मद नजीम (सं. 13891701एच अब जेसी-663770वाई),
15 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अब्दुल सलाम (सं. 13891723एफ अब जेसी-663771एफ),
01 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 20 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार भगवान भगत (सं. 13886533एल अब जेसी-663772के),
31 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 29 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हरि नारायण राय (सं. 13891121एन अब जेसी-663773एम),
22 दिसम्बर 2005*

हवलदार सोमनाथ (सं. 13889455के अब जेसी-663774पी),
19 दिसम्बर 2005*

हवलदार विश्वनाथ घोस (सं. 13884126के अब जेसी-663775एक्स),
10 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार तेजा राम (सं. 13891328एक्स अब जेसी-663776ए),
01 दिसम्बर 2005*

हवलदार जयवीर सिंह (सं. 13885457एक्स अब जेसी-663777एच),
03 जनवरी 2006*

हवलदार पारस नाथ सिंह (सं. 13883606एफ अब जेसी-663778एल),
17 दिसम्बर 2005*

हवलदार पदमा चरन मोहन्ती (सं. 13890294वाई अब
जेसी-663779एन), 17 दिसम्बर 2005*

हवलदार मदन सिंह (सं. 13887485एच अब जेसी-663780एच), 23
दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राज देव सिंह (सं. 13891185वाई अब जेसी-663782एन),
12 जनवरी 2005*

हवलदार सुरेश बाबु (सं. 13889232एम अब जेसी-663783डब्ल्यू),
20 दिसम्बर 2005*

हवलदार निशार अहमद (सं. 13888681पी अब जेसी-663784वाई),
26 दिसम्बर 2005*

हवलदार टी. पी. एल. भाई मधु भाई (सं. 13887575के अब
जेसी-663785एफ), 12 जनवरी 2005*

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद नापित (सं. 13890857एन अब
जेसी-663786के), 17 जनवरी 2005*

हवलदार सुदन चन्द्र राय (सं. 13889175डब्ल्यू अब
जेसी-663787एम), 05 जनवरी 2005*

हवलदार विजय पाल सिंह (सं. 13886730एन अब जेसी-663788पी),
03 जनवरी 2005*

हवलदार मोहम्मद फ़जल अहमद (सं. 13890871ए अब
जेसी-663781एक्स), 16 दिसम्बर 2005*

हवलदार पी थन्गामानी (सं. 13886940एन अब जेसी-663790एम),
06 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार यश पाल (सं. 13877588एन अब जेसी-663791पी),
03 जनवरी 2005*

हवलदार सी. एल. भाई बाबु राव (सं. 13887297एफ अब
जेसी-663792एक्स), 03 जनवरी 2005*

तोपखाना अभिलेख

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी/एस के टी) के पद में

हवलदार/एसकेटी रमेश कुमार (सं. 14489361पी अब
जेसी-268648वाई), 01 सितम्बर 2005

हवलदार/एसकेटी रमेश चन्द्र राठौर (सं. 14378425ए अब
जेसी-268649एफ), 05 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

हवलदार/एसकेटी कामेश्वर सिंह (सं. 14378492एल अब
जेसी-268650डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

हवलदार/क्लर्क रविन्द्र सिंह (सं. 14477589वाई अब
जेसी-268651वाई), 30 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005*

हवलदार/एसकेटी रास बिहारी घोस (सं. 14378631के अब
जेसी-268652एफ), 10 अक्टूबर 2005/09 सितम्बर 2005*

हवलदार/एसकेटी श्री कान्त प्रसाद सिन्हा (सं. 14378480डब्ल्यू अब
जेसी-268653के), 08 अक्टूबर 2005/09 सितम्बर 2005*

हवलदार/एसकेटी कमलेश कुमार सिंह (सं. 14372474एम अब
जेसी-268654एम), 10 अक्टूबर 2005/09 सितम्बर 2005*

हवलदार/एसकेटी हरि शंकर बान्धोपाध्याय (सं. 14489724एन अब
जेसी-268708एच), 24 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार/एसकेटी प्रधूत मुखोपाध्याय (सं. 14489727एफ अब
जेसी-268768एक्स), 01 नवम्बर 2005

*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

हवलदार/एसकेटी मुकतार अली खान (सं. 14489729एम अब
जेसी-268709एल), 01 नवम्बर 2005

हवलदार/एसकेटी तपन कुमार नाथ (सं. 14489731के अब
जेसी-268710ए), 05 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

हवलदार/एसकेटी सुकान्ता देव सिन्हा (सं. 14489732एम अब
जेसी-268711एच), 01 दिसम्बर 2005

*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

एस. पी. शर्मा,
अवर सचिव

सं. 303, दिनांक 23 मई 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

सेना डाक सेवा कोर

- वारंट आफिसर/हवलदार (क्लर्क) से नायब सूबेदार/लिपिक (डाक)
जगदीश चंद धारीवाल डब्ल्यूओ (सं. 8370751पी अब जेसी-834543ए), 14 सितम्बर 2005*
- विनोद नारायण सक्सेना डब्ल्यूओ (सं. 8372230ए अब जेसी-834544एच), 26 जुलाई 2005*
- गुंडू वी सत्यनारायण डब्ल्यूओ (सं. 8373425एक्स अब जेसी-834545एल), 26 जुलाई 2005*
- जानसन राय अलेक्जेंडर मेनजस डब्ल्यूओ (सं. 8373714एम अब जेसी-834546एन), 05 अगस्त 2005*
- एम मुरुगन डब्ल्यूओ (सं. 8373754एन अब जेसी-834547डब्ल्यू), 20 जुलाई 2005*
- महबूब आलम खान डब्ल्यूओ (सं. 8372524एन अब जेसी-834548वाई), 23 सितम्बर 2005*
- सुखवीर सिंह डब्ल्यूओ (सं. 8368332वाई अब जेसी-834549एफ), 26 जुलाई 2005*
- केदार प्रसाद मिश्रा डब्ल्यूओ (सं. 8366712वाई अब जेसी-834550डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005*
- राम कित पौल डब्ल्यूओ (सं. 8367300के अब जेसी-834551वाई), 30 जुलाई 2005*
- ज्योतिमय दास डब्ल्यूओ (सं. 8367687एक्स अब जेसी-834552एफ), 06 सितम्बर 2005*
- जगन्नाथ डब्ल्यूओ (सं. 8366231एम अब जेसी-834553के), 01 अगस्त 2005*
- जवाहर लाल झा डब्ल्यूओ (सं. 8368230एच अब जेसी-834554एम), 23 अगस्त 2005*
- मोहन सिंह डब्ल्यूओ (सं. 8368700एच अब जेसी-834555पी), 23 अगस्त 2005*
- रतन सिंह बलोरिया डब्ल्यूओ (सं. 8367797एम अब जेसी-834556एक्स), 02 सितम्बर 2005*
- वी चन्द्रसेकरन डब्ल्यूओ (सं. 8367705पी अब जेसी-834557ए), 02 अगस्त 2005*
- लाल मनी डब्ल्यूओ (सं. 8368405ए अब जेसी-834558एच), 24 अगस्त 2005*
- लाल मनी डब्ल्यूओ (सं. 8371528एक्स अब जेसी-834559एल), 22 सितम्बर 2005*
- रामानंद गिरी डब्ल्यूओ (सं. 8366063वाई अब जेसी-834560ए), 01 अगस्त 2005*
- *(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 मई 2005 से दी जायेगी)

- रोशन लाल डब्ल्यूओ (सं. 8370285एल अब जेसी-834561एच), 01 सितम्बर 2005\$
- \$ (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जून 2005 से दी जायेगी)
- हवलदार (क्लर्क) मुत्थूमोहन ए के (सं. 8430825एल अब जेसी-834562एल), 26 नवम्बर 2005@
- @ (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)
- रती राम मीना डब्ल्यूओ (सं. 8371015एच अब जेसी-834563एन), 16 नवम्बर 2005%
- मोहनन सी के डब्ल्यूओ (सं. 8373444एच अब जेसी-834564डब्ल्यू), 13 अक्टूबर 2005%
- कृष्णा प्रसाद राजनाथ ओझा डब्ल्यूओ (सं. 8368393डब्ल्यू अब जेसी-834565वाई), 24 अक्टूबर 2005%
- बी एच शिवशंकरप्पा डब्ल्यूओ (सं. 8367737एक्स अब जेसी-834566एफ), 02 नवम्बर 2005%
- लक्ष्मी नारायण बलाई डब्ल्यूओ (सं. 8369990एक्स अब जेसी-834567के), 21 नवम्बर 2005%
- घनश्याम सिंह डब्ल्यूओ (सं. 8368847वाई अब जेसी-834568एम), 17 अक्टूबर 2005%
- अनिल कुमार श्रीवास्तव डब्ल्यूओ (सं. 8371152एफ अब जेसी-834569पी), 08 नवम्बर 2005%
- मोर सिंह डब्ल्यूओ (सं. 8367506एफ अब जेसी-834570के), 08 नवम्बर 2005%
- खयाली राम मीना डब्ल्यूओ (सं. 8370486के अब जेसी-834571एम), 14 नवम्बर 2005%
- हनमा गौडा बिरादर डब्ल्यूओ (सं. 8373580वाई अब जेसी-834572पी), 16 नवम्बर 2005%
- राम प्रसाद यादव डब्ल्यूओ (सं. 8371266एम अब जेसी-834573एक्स), 13 अक्टूबर 2005%
- देवेन्द्र सिंह यादव डब्ल्यूओ (सं. 8372228एच अब जेसी-834574ए), 28 दिसम्बर 2005%
- श्री कृष्णा भारद्वाज डब्ल्यूओ (सं. 8369984के अब जेसी-834575एच), 23 नवम्बर 2005%
- हरीश चन्द्र सिंह शाही डब्ल्यूओ (सं. 8370499एफ अब जेसी-834576एल), 07 अक्टूबर 2005%
- खत्री आत्मानन्द उमंग लाल डब्ल्यूओ (सं. 8373521एम अब जेसी-834577एल), 27 नवम्बर 2005%
- दर्शन सिंह डब्ल्यूओ (सं. 8371780डब्ल्यू अब जेसी-834578डब्ल्यू), 08 दिसम्बर 2005%
- मोहम्मद युसुफ डब्ल्यूओ (सं. 8372742एम अब जेसी-834579वाई), 28 नवम्बर 2005%
- राम नरेश प्रजापति डब्ल्यूओ (सं. 8371437एन अब जेसी-834580एन), 17 अक्टूबर 2005%

श्री नाथ मौर्या डब्ल्यूओ (सं. 8372075के अब जेसी-834581डब्ल्यू),
05 नवम्बर 2005%

रामेश्वर सिंह डब्ल्यू ओ. (सं. 8371487वाई अब जेसी-834582वाई),
11 नवम्बर 2005%

महदी हसन (सं 8368586डब्ल्यू अब जेसी-834583एफ),
09 अक्टूबर 2005%

विनोद कुमार शर्मा डब्ल्यूओ (सं 8371050एल अब जेसी-834584के),
10 नवम्बर 2005%

साधू राम डब्ल्यूओ (सं 8368712एक्स अब जेसी-834585एम),
17 नवम्बर 2005%

गोकुल प्रसाद वर्मा डब्ल्यूओ (सं 8371717एफ अब जेसी-834586पी),
05 अक्टूबर 2005%

रिशीपाल डब्ल्यूओ (सं 8372147एच अब जेसी-834587एक्स),
08 अक्टूबर 2005%

अमरजीत सिंह डब्ल्यूओ (सं 8370766एक्स अब जेसी-834588ए),
08 अक्टूबर 2005%

विद्यानन्द सिंह डब्ल्यूओ (सं 8370775वाई अब जेसी-834589एच),
24 अक्टूबर 2005%

हवलदार(क्लर्क) विजय कुमार गुरुंग (सं 8430297एम अब
जेसी-834590एक्स), 24 अक्टूबर 2005%

%(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 13 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

टी.के.एम. पिल्लै
अवर सचिव

वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय

सं. 304, दिनांक 22 मई 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति
करते हैं :--

1. वै गु आ मनि मुख्यालय नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक
(राजपत्रित), श्री धर्मपाल सिंह 22 मार्च 2006 पूर्वाह्न से वै गु आ मनि
मुख्यालय नई दिल्ली में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

2. मु आ नि कार्यालय देहरादून के वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (राजपत्रित),
श्री एम एस राणा 23 मार्च 2006 पूर्वाह्न से उसी कार्यालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक
अधिकारी के रूप में।

3. मु आ नि कार्यालय कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (राजपत्रित),
श्री आर के त्रिपाठी 24 मार्च 2006 पूर्वाह्न से उसी कार्यालय में कनिष्ठ
वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

4. मु आ नि कार्यालय ऋजियाबाद की वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक
(राजपत्रित), श्रीमती अलका भार्गव 22 मार्च 2006 अपराह्न से उसी
कार्यालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

5. दुकड़ी वा. श. नि. स्कंध, इटारसी के फोरमैन श्री डी एम बजाज 25
मार्च 2006 पूर्वाह्न से उसी कार्यालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के
रूप में।

वी. सेतुमाधवन
अवर सचिव

सं. 305, दिनांक 24 मई 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों
की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेवा
स्थायी कमीशन
(सेना चिकित्सा सेवा)
ले. कर्नल के पद पर

पद व नाम, व्यक्तिगत संख्या, पदोन्नति की तिथि

मेजर दिनेश चन्द्रा (एनटीआर-16509डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

मेजर किशन दत्ता नाड़ा (एनटीआर-16614एम), 16 दिसम्बर 2004

मेजर मोहन दास सी (एनटीआर-16508एन), 16 दिसम्बर 2004

मेजर रंजीत सिंह (एनटीआर-16567ए), 16 दिसम्बर 2004

मेजर रोशन लाल कोटवाल (एनटीआर-16615पी), 16 दिसम्बर 2004

मेजर पूरन चन्द (एनटीआर-16523एच), 16 दिसम्बर 2004

मेजर मधु प्रीत सिंह (एनटीआर-16650एक्स), 16 दिसम्बर 2004

मेजर मोहम्मद अतुल खैर (एनटीआर-16621एच), 16 दिसम्बर 2004

मेजर तपस्वी सतीश रत्नाकर (एनटीआर-16623एन), 16 दिसम्बर
2004

मेजर मुन्शी अब्दुल कादर (एनटीआर-16599एच), 16 दिसम्बर 2004

मेजर बिमला नाथ भट्टाचार्य (एनटीआर-16524एल), 16 दिसम्बर
2004

मेजर श्रीनाथ बी आर (एनटीआर-16598ए), 16 दिसम्बर 2004

मेजर डेबी प्रसन्न स्वाउन (एनटीआर-16601पी), 16 दिसम्बर 2004

मेजर ओम प्रकाश (एनटीआर-16525एन), 16 दिसम्बर 2004

मेजर भागमल (एनटीआर-16594के), 16 दिसम्बर 2004

मेजर प्रभात कुमार मुखोपाध्याय (एनटीआर-16586एल), 16 दिसम्बर
2004

मेजर सोम मित्तर कश्यप (एनटीआर-16529के), 16 दिसम्बर 2004

मेजर प्रकाशन एम एन (एनटीआर-16528एफ), 16 दिसम्बर 2004

मेजर देवेन्द्र सिंह गहलावत (एनटीआर-16507एल), 16 दिसम्बर 2004

मेजर बलविन्दर सिंह बाजवा (एनटीआर-16624डब्ल्यू), 16 दिसम्बर
2004

मेजर हरि हर प्रसाद सिंह (एनटीआर-16600एम), 16 दिसम्बर 2004

मेजर गणेश कुमार पात्रा पन्डा (एनटीआर-16526डब्ल्यू), 16 दिसम्बर
2004

मेजर सत्य नारायण शर्मा (एनटीआर-16597एक्स), 16 दिसम्बर 2004

मेजर भगवान यादव (एनटीआर-16655डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

मेजर अरबुज तानाजी (एनटीआर-16572एल), 16 दिसम्बर 2004

मेजर रंग राव (एनटीआर-16573एन), 16 दिसम्बर 2004

मेजर दयाराम यादव (एनटीआर-16575वाई), 16 दिसम्बर 2004

मेजर पाटील हरेश नामदेव (एनटीआर-16577के), 16 दिसम्बर 2004

मेजर थामस पी टी (एनटीआर-16579पी), 16 दिसम्बर 2004

मेजर तिलक गोगई (एनटीआर-16580के), 16 दिसम्बर 2004

मेजर बलवान सिंह (एनटीआर-16583एक्स), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर नरेन्द्र सिंह (एनटीआर-16584ए), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर पॉल्स एम ओ (एनटीआर-16604एच), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर चन्द्रशेखरन एम के (एनटीआर-16606एन), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर दुरवेसुला सुब्बय्या (एनटीआर-16625वाई), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर बिरेन्द्र सिंह (एनटीआर-16626एफ), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर यशपाल सिंह (एनटीआर-16627के), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर लेख चन्द कटोच (एनटीआर-16632पी), 24 जुलाई 2005
 मेजर रविन्द्र सिंह (एनटीआर-16634ए), 24 जुलाई 2005
 मेजर रगोथमन वी (एनटीआर-16635एच), 24 जुलाई 2005
 मेजर शान्ति भूषण दास (एनटीआर-16549डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर अचुत्तन एम (एनटीआर-16556एन), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर रोशन लाल गंगल (एनटीआर-16558वाई), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर विनोद कुमार टी टी (एनटीआर-16651ए), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर संगाम्पा हाडपड (एनटीआर-16656वाई), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर जयमल सिंह (एनटीआर-16658के), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर जीत सिंह (एनटीआर-16653एल), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर नागेन्द्रा राय (एनटीआर-16652एच), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर गुजराज सिंह (एनटीआर-16649एच), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर मोहन सिंह (एनटीआर-16574डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर गोरखनाथ सिंह (एनटीआर-16654एन), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर धर्म चन्द शर्मा (एनटीआर-16657एफ), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर सूरज पाल सिंह नेगी (एनटीआर-16553ए), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर रमेश चन्द दुल्लिया (एनटीआर-16554एच), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर सुरेश बाबु पी पी (एनटीआर-16555एल), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर अशोक कुमार (एनटीआर-16608वाई), 16 दिसम्बर 2004
 मेजर राम कुमार सिंह बदारिया (एनटीआर-16622एल), 16 दिसम्बर 2004

मेजर रघुरामन (एनटीआर-16659एम), 16 दिसम्बर 2004

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

ले. कर्नल के पद पर

पद व नाम, व्यक्तिगत संख्या, पदोन्नति की तिथि

मेजर ओम प्रकाश (एनटीआर-16543डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

मेजर शिव नारायण तिवारी (एनटीआर-16589वाई), 16 दिसम्बर 2004

मेजर सत्येन्द्र कुमार सिंह (एनटीआर-16684एल), 16 दिसम्बर 2004

मेजर फेड्रीक भगवान दास अधादुराई (एनटीआर-16595एम), 16 दिसम्बर 2004

मेजर विरेन्द्र कुमार (एनटीआर-16640एन), 16 दिसम्बर 2004

मेजर उमा शंकर दुबे (एनटीआर-16647एक्स), 16 दिसम्बर 2004

मेजर अशोक कुमार भांकुडी (एनटीआर-16657डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

मेजर भाखर सिंह नागर (एनटीआर-16570ए), 16 दिसम्बर 2004

मेजर विद्या सागर खजुरिया (एनटीआर-16578एम), 16 दिसम्बर 2004

मेजर सुरत कुमार राज (एनटीआर-16585एच), 16 दिसम्बर 2004

मेजर सेलवनगमू सामसु (एनटीआर-16605एल), 16 दिसम्बर 2004

(सेना चिकित्सा सेवा)

मेजर से ले कर्नल के पद पर

पद, नाम, व्यक्तिगत सं. और पदोन्नति की तिथि

मेजर मोहिन्द्र राय (एनटीआर-16373वाई), 17 मई 2000

स्थायी कमीशन/अल्पकालिक कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

मेजर के पद पर

पद, नाम, व्यक्तिगत सं. और पदोन्नति की तिथि

कप्तान पी मुर्गसन (एनटीआर-16638डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान संतोष कुमार श्रीवास्तव (एनटीआर-16342वाई), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान नरेन्द्रा के पी (एनटीआर-16645एम), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान सहजविर सिंह (एनटीआर-16660एफ), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान ईश्वर दास (एनटीआर-16662एम), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान श्याम सिंह (एनटीआर-16661के), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान सुरेन्द्रन बी (एनटीआर-16664एक्स), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान गुणकर गिरि (एनटीआर-16665ए), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान भगवान कुमार (एनटीआर-16663पी), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान देवेन्द्र कुमार शर्मा (एनटीआर-16666एच), 16 दिसम्बर 2004

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

मेजर के पद पर

पद, नाम, व्यक्तिगत सं. और पदोन्नति की तिथि

कप्तान एस मनी (एनटीआर-16603ए), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान वाई सुगुमर पी (एनटीआर-16636एल), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान सत्येन्द्र कुमार (एनटीआर-16641डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान जसवंत सिंह (एनटीआर-16643एफ), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान एस एस पनवर (एनटीआर-16670एल), 19 अप्रैल 2005

कप्तान के पद पर

पद, नाम, व्यक्तिगत सं. और पदोन्नति की तिथि

कप्तान सायमन पी एल (एनटीआर-16672डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान राजेश चन्द्रा (एनटीआर-16674एफ), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान एम डी पाटील (एनटीआर-16673वाई), 16 दिसम्बर 2004
 कप्तान डी एस चव्हाण (एनटीआर-16675के), 16 दिसम्बर 2004
 कप्तान विजय कुमार (एनटीआर-16677पी), 16 दिसम्बर 2004
 लेफ्टि. विद्युत मुखर्जी (एनटीआर-16686डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004
 लेफ्टि. महिपाल (एनटीआर-16690वाई), 16 दिसम्बर 2004
 लेफ्टि. श्याम सिंह (एनटीआर-16694पी), 19 मई 2005

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

कप्तान से मेजर के पद पर

पद, नाम, व्यक्तिगत सं. और पदोन्नति की तिथि

कप्तान अंजली रानी (एमएस-14411के), 01 अप्रैल 2003
 कप्तान मनीष कुमार (एमएस-14489पी), 19 जून 2003
 कप्तान सुदीप चौधरी (एमएस-14492पी), 19 दिसम्बर 2003
 कप्तान गिरिश कुमार पाण्डे (एमएस-14499वाई), 12 फरवरी 2004
 कप्तान आनंद गुप्ता (एमएस-14691एच), 9 दिसम्बर 2004
 कप्तान राजदीप सिंह (एमएस-14113एन), 22 दिसम्बर 2004
 कप्तान स्वाधीन मेनारिया (एमएस-14128डब्ल्यू), 16 जनवरी 2005
 कप्तान अनिता विक्टर (एमएस-14177वाई), 22 जनवरी 2005
 कप्तान राजीव के (एमएस-14198पी), 24 जनवरी 2005
 कप्तान आशीम रॉय (एमएस-14202एम), 31 जनवरी 2005
 कप्तान यासीन अन्सारी (एमएस-14204एक्स), 05 फरवरी 2005
 कप्तान रिमिल हेरेन्ज (एमएस-14205ए), 05 फरवरी 2005
 कप्तान आनंद विजय (एमएस-14259एफ), 08 फरवरी 2005
 कप्तान बिराज गोगई (एमएस-14787एल), 17 फरवरी 2005
 कप्तान श्रीमन्नारायण मिश्रा (एमएस-14157एल), 01 मार्च 2005
 कप्तान (श्रीमती) सोनल दीक्षित (एमएस-14223एच), 01 मार्च 2005
 कप्तान शविन्द्र (एमएस-14788एन), 04 मार्च 2005

फ्ला. लेफ्टि. से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

फ्ला. लेफ्टि. (कु.) रेणु गौर (एमएस-13494एन) (एफ-26048एच),
 15 अप्रैल 2001

फ्ला. लेफ्टि. (श्रीमती) यशोदा कोप्पल (एमएस-14110ए)
 (एफ-26038बी), 03 अक्टूबर 2001

फ्ला. लेफ्टि. निशांत दादा राव मेंहदे (एमएस-14152एम)
 (एफ-26074के), 24 जुलाई 2004

फ्ला. लेफ्टि. मनीष भारती (एमएस-14164एफ) (एफ-26468एच),
 06 दिसम्बर 2004

फ्ला. लेफ्टि. संगप्पा शंकर राव (एमएस-14251पी) (एफ-26473आर),
 05 जुलाई 2005

फ्ला. लेफ्टि. अरविंद कुमार गुप्ता (एमएस-14253ए) (एफ-26476जी),
 28 अगस्त 2005

फ्ला. लेफ्टि. मधुलिका जैन (एमएस-14444पी) (एफ-26905ए),
 12 सितम्बर 2005

फ्ला. लेफ्टि. थाइलनया डान कंलिग (एमएस-14273एन)
 (एफ-26496एस), 21 जनवरी 2006

फ्ला. लेफ्टि. योगेश कुमार (एमएस-14391एफ) (एफ-26493जी),
 21 जनवरी 2006

सर्जन लेफ्टि. से सर्जन लेफ्टि. कमाण्डर के पद पर

सर्जन लेफ्टि. स्मिता दत्ता (एमएस-14577एल) (75815एफ),
 11 मार्च 2004

सर्जन लेफ्टि. मनोरंजन पाट्टी (एमएस-14230वाई) (75751के),
 12 मार्च 2005

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

कृते महानिदेशक स.से.चि.से. (पी)

(सेना शाखा)

सं. 306, दिनांक 24 मई 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
 अधिकारियों को सेवा निवृत्ति की अवधि पूरी होने पर सैनिक सेवा से निवृत्त
 होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

मेजर उमा शंकर दुबे (एनटीआर-16647एक्स), 31 जुलाई 2005

मेजर तारा दत्त भट्ट (एनटीआर-16616एक्स), 31 जुलाई 2005

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

कृते महानिदेशक स.से.चि.से. (पी)

(सेना शाखा)

सं. 307, दिनांक 24 मई 2006--

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

(शुद्धि पत्र)

निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जो कि प्रथम नियुक्ति शीर्षक के अन्तर्गत हैं एवं
 उसके राजपत्र अधिसूचना प्रारूप आपके पत्र संख्या 3018/ए एफ एल/डी
 जी एन-2 दिनांक 03 अप्रैल 2000 द्वारा पुनरीक्षित एवं पारित किया गया है
 और दिनांक 23 सितम्बर 2000 में प्रकाशित किया गया है, में निम्न संशोधन
 किया जाए :--

मेजर रघुरामन के (एनटीआर-16659एम)

के लिए :-- 15 दिसम्बर 1997 से प्रभावी

पढ़ें :-- 15 दिसम्बर 1987 से प्रभावी

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

कृते महानिदेशक स.से.चि.से. (पी)

(ARMY BRANCH)

New Delhi, the 17th June 2006

No. 301, dated 24th May 2006—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under 75/78 amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (Probn)

Capt Raj Kumar Choubey (MS-14428-X), DOC, 30th January 2002

With seniority for pay and promotion from 30.07.2001. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Vikrant V Gadkari (MS-14524-M), DOC, 17th February 2003

With seniority for pay and promotion from 17.08.2002. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

Capt Prashant Kumar Singh Chauhan (MS-14238-L), DOC, 15th March 2001

With seniority for pay and promotion from 15.09.2000. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officers are hereby cancelled).

Capt Girish Kumar Pandey (MS-14499-Y), AMC, 12th February 2000

Capt M K Kissinger Maring (MS-14521-Y), AMC, 15th February 2003

Capt Ajay Kumar (MS-14669-X), AMC, 24th November 2003

Capt Shailendra Kumar (MS-14767-X), AMC, 17th February 2004

Capt Kunj Bihari Prasad (MS-14811-W), AMC, 29th March 2004

Capt Rajeev Kumar Tripathi (MS-14229-K), AMC, 12th March 2001

Capt Jaydev Tudu (MS-14951-H), AMC, 12th April 2005

Capt Gagandeep Singh (MS-14954-W), AMC, 12th April 2005

Capt Arun Kumar Sharma (MS-14955-Y), AMC, 12th April 2005

Capt Mhaske Nilesb Madhukar (MS-14956-F), AMC, 12th April 2005

Capt Dheeraj Kumar (MS-14958-M), AMC, 12th April 2005

Capt Surjeet Singh (MS-14959-P), AMC, 12th April 2005

Capt Anut Kumar Kohli (MS-14961-M), AMC, 12th April 2005

Capt Mukesh Kumar (MS-14962-P), AMC, 12th April 2005

Capt Babu Biju (MS-14963-X), AMC, 12th April 2005

Capt Ravi Shekar Hiremath (MS-14964-A), AMC, 12th April 2005

Capt Ashok Kumar (MS-14966-L), AMC, 12th April 2005

Capt Anubhav Agnihotri (MS-14967-N), AMC, 12th April 2005

Capt Srinivas G (MS-14968-W), AMC, 12th April 2005

Capt Bedi Nonika Jatendar (MS-15005-W), AMC, 12th April 2005

Capt Madhukar Haribhau Kamble (MS-14891-Y), AMC, 5th October 2004

Capt Teli Prabhakar Tanunanna (MS-14894-M), AMC, 5th October 2004

Capt Vivek Singh Guleria (MS-14982-H), AMC, 12th April 2005

Capt Yogesh Vijay (MS-14983-L), AMC, 12th April 2005

Capt Yadvir Garg (MS-14986-Y), AMC, 12th April 2005

Capt Sidhartha Prasad K M (MS-14987-F), AMC, 12th April 2005

Capt Santosh Kumar Jayasawal (MS-14988-K), AMC, 12th April 2005

Capt Rakesh Kumar M R (MS-14989-M), AMC, 12th April 2005

Capt Hemant Kumar (MS-14990-F), AMC, 12th April 2005

Capt Ajay Kaushik (MS-14991-K), AMC, 12th April 2005

Capt Yasvinder Kumar (MS-14992-M), AMC, 12th April 2005

Capt Gurpreet Rai (MS-14998-N), AMC, 12th April 2005

Capt Manas Ranjan Pattnaik (MS-15000-X), AMC, 12th April 2005

Capt Naveen Kumar Sharma (MS-15003-L), AMC, 12th April 2005

Capt Prabhat Kumar (MS-15008-K), AMC, 12th April 2005

Capt Sween (MS-15011-K), AMC, 12th April 2005

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended.

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(To be Lt on probation)

Lt Zafar Israil (MS-14934-H), AMC, 21st February 2005

Lt Indra Prakash Dubey (MS-14935-L), AMC, 21st February 2005

Lt Abhishek Kumar Sharma (MS-14936-N), AMC, 21st February 2005

Lt Arvind Semalti (MS-14937-W), AMC, 21st February 2005

Lt Amit Kumar Srivastava (MS-14938-Y), AMC, 21st February 2005

Lt Anshu Kumar (MS-14939-F), AMC, 21st February 2005

Lt Vijay Kumar Pawar (MS-14940-W), AMC, 21st February 2005

Lt Abhishek Rathore (MS-14941-Y), AMC, 21st February 2005

Lt Pramod Solanki (MS-14942-F), AMC, 21st February 2005

Lt Puneet Dewan (MS-14943-K), AMC, 21st February 2005

Lt Neha Goyal (MS-14944-M), AMC, 21st February 2005

Lt Ankur Sharma (MS-14945-P), AMC, 21st February 2005

Lt Jagriti Verma (MS-14946-X), AMC, 21st February 2005

Lt Kamal Preet Singh (MS-14947-A), AMC, 21st February 2005

Lt Bhavesh Talera (MS-14914-P), AMC, 21st February 2005

Lt Varakuti Mallika (MS-14915-X), AMC, 21st February 2005

Lt Shyamdatt Jhariya (MS-14916-A), AMC, 21st February 2005

Lt Mohammad Anas Mazhar Aziz (MS-14917-H), AMC, 21st February 2005

Lt Meenu Dangi (MS-14920-H), AMC, 21st February 2005

Lt Raminderpal Singh Cheema (MS-14921-L), AMC, 21st February 2005

Lt Sumit Kumar Agrawal (MS-14922-N), AMC, 21st February 2005

Lt Imran Mehdi (MS-14923-W), AMC, 21st February 2005

Lt Avinash Kumar (MS-14924-Y), AMC, 21st February 2005

Lt Khusbu (MS-14926-K), AMC, 21st February 2005

Lt Gurveen Waraich (MS-14929-X), AMC, 21st February 2005

Lt Vinod Kumar Sahu (MS-14930-M), AMC, 21st February 2005

Lt Durgesh Kumar Sharma (MS-14931-P), AMC, 21st February 2005

Lt Shailesh Mogra (MS-14932-X), AMC, 21st February 2005

Lt Akhilesh Kumar Mishra (MS-14933-A), AMC, 21st February 2005

The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended.

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(To be Flt Lt on probation)

Flt Lt Prasanta Dutta (MS-14631-N/AF-26936-A), AMC, 24th April 2003

Flt Lt Rajeshwari K A (MS-15057-M/AF-28368), AMC, 12th April 2005

Flt Lt Bubbal Chaudhary (MS-15058-P/AF-28371), AMC, 12th April 2005

Flt Lt Vishal Jarewal (MS-15063-A/AF-28376), AMC, 19th April 2005

Flt Lt Nim Dheeraj Kumar Pooranchand (MS-15081-H/AF-28380), AMC, 17th May 2005

Flt Lt Ramanjit Singh Akal (MS-15082-L), AMC, 17th May 2005

Flt Lt K Shankar Reddy (MS-15083-N), AMC, 17th May 2005

Flt Lt Vinod CN (MS-15084-W), AMC, 17th May 2005

Flt Lt Atul Kumar Singh (MS-15085-Y), AMC, 25th July 2005

Flt Lt Manish Kumar Singh (MS-14905-N/AF-27668), AMC, 04th December 2004

Flt Lt Yatender Kumar Chaudhry (MS-14948-H/AF-27664), AMC, 5th October 2004

Flt Lt Surendra Kumar (MS-15022-W/AF-28373), AMC, 12th April 2005

Flt Lt Bhavna Chawla (MS-15023-Y/AF-28374), AMC, 12th April 2005

Flt Lt Anbu Chezian R (MS-15024-F/AF-28367), AMC, 12th April 2005

Flt Lt Mohana Priya N (MS-15025-K/AF-28369), AMC, 12th April 2005

Flt Lt Hari Guremandir J.B.P.S. Darling (MS-15026-M/AF-28372), AMC, 12th April 2005

Flt Lt Thirumoorthis N (MS-15053-W/AF-27685), AMC, 12th April 2005

Flt Lt Alok Kumar Gupta (MS-15055-F/AF-27682), AMC, 12th April 2005

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended.

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(To be Fg. Offr on probation)

Fg. Offr Harmeet Singh Gurm (MS-14918-L), AMC, 21st February 2005

Fg. Offr Amrita Parmar (MS-14927-M), AMC, 21st February 2005

Fg. Offr Gaurav Attri (MS-14928-P), AMC, 21st February 2005

(To be Surg Sub Lt on probation)

Surg Sub Lt Amit Kumar (MS-14860-Y), AMC, 22nd September 2004

Surg Sub Lt Siddharth Garekar (MS-14861-F), AMC, 22nd September 2004

Surg Sub Lt Shishir Gupta (MS-14866-A), AMC, 22nd September 2004

Surg Sub Lt Sidharth Sehrawat (MS-14867-H), AMC, 22nd September 2004

Surg Sub Lt Ajay Kumar (MS-14872-N), AMC, 22nd September 2004

Surg Sub Lt Sudhini Pavan Kumar (MS-14873-W), AMC, 22nd September 2004

Surg Sub Lt Vivek Sachan (MS-14874-Y), AMC, 22nd September 2004

Surg Sub Lt Manish Gulia (MS-14875-F), AMC, 22nd September 2004

RAJESH KAMRAN
Brig.
Dy DGAFMS (Pers)

ARMY BRANCH

REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS

(SUPPLY)

No. 302, dated 22nd May 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

To be Subedar : CLK (GD)

Naib Subedar Satpal (JC-641799F), 01 Sep 2005

Naib Subedar Guman Singh Yadav (JC-641794H), 01 Sep 2005

Naib Subedar Satwaji (JC-641796N), 05 Sep 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 05 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Satish Chandra Sharma (JC-641793A), 01 Sep 2005

Naib Subedar Rajender Singh (JC-641795L), 15 Sep 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 05 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Sube Singh Rath (JC-641903K), 01 Sep 2005

Naib Subedar A Robert Betterman (JC-641665H), 27 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 05 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Surjan (JC-641791P), 12 Sep 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 05 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Vidya Ram (JC-641904M), 20 Sep 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 05 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Ram Dhan (JC-641797W), 20 Sep 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 05 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Daljit Singh (JC-641800L), 03 Oct 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 05 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Deen Dayal (JC-641801W), 01 Oct 2005

Naib Subedar Sree Kantan Nair V (JC-641905P), 01 Oct 2005

Naib Subedar Anil Kumar Singh (JC-641810P), 01 Nov 2005

Naib Subedar Jai Lal (JC-641907A), 01 Nov 2005

Naib Subedar Rajesh Kumar Singh (JC-641960L), 01 Nov 2005

Naib Subedar Deepak Sharma (JC-641110F), 01 Oct 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 28 Jun 05 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Prem Lal Singhal (JC-641814L), 01 Nov 2005

Naib Subedar Omkar Singh (JC-641805K), 01 Nov 2005

Naib Subedar Rambir (JC-641808X), 08 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 05 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Balwan Singh (JC-641809A), 01 Nov 2005

Naib Subedar Washim Ahemmad Khan (JC-641813H),
02 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 05 without
effect on pay and allces).

Naib Subedar Thukkaram C (JC-641910A), 01 Dec 2005

Naib Subedar Pradeep Kumar Pattanaik (JC-641815N),
01 Dec 2005

Naib Subedar Ashok Kumar Verma (JC-641908H), 01 Dec
2005

Naib Subedar Mangal Singh Bhadauria (JC-641816W),
01 Dec 2005

Naib Subedar Gopal Singh Shekhawat (JC-641817Y),
01 Dec 2005

Naib Subedar Darshan Kumar (JC-642185L), 01 Dec 2005

Naib Subedar Ranjan Kumar Dey (JC-641818F), 01 Dec
2005

Naib Subedar Krishna Chand (JC-641909L), 01 Dec 2005

Naib Subedar Nrien Chandra Barman (JC-641917K), 01 Jan
2006

Naib Subedar Thankappan AG (JC-641918M), 01 Jan 2006

Naib Subedar Rajaram Singh (JC-641919P), 02 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 06 without
effect on pay and allces).

Naib Subedar Ravinder Singh (JC-641789X), 28 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 05 without
effect on pay and allces).

Naib Subedar Sudhakaran P (JC-641911H), 01 Jan 2006

Naib Subedar Ranbir Singh (JC-641912L), 02 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 06 without
effect on pay and allces).

Naib Subedar Ajay Kumar Verma (JC-641920K), 02 Jan
2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 06 without
effect on pay and allces).

Naib Subedar Shiv Kumar (JC-641921M), 01 Jan 2006

Naib Subedar Sham Singh (JC-641915Y), 21 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 06 without
effect on pay and allces).

Naib Subedar Balraj Singh Dahiya (JC-641922P), 18 Jan
2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 06 without
effect on pay and allces).

Naib Subedar C Vijaya Kumar (JC-641923X), 01 Feb 2006

Naib Subedar Nagendra Prasad Singh (JC-641961N),
01 Feb 2006

Naib Subedar Rattan Singh (JC-641925H), 01 Feb 2006

Naib Subedar Bendre Shivaling Pandurang (JC-641924A),
01 Feb 2006

Naib Subedar Santosh Kumar Katoch (JC-642316L), 01 Feb
2006

Naib Subedar Jayaprakasan P (JC-641819K), 10 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 06 without
effect on pay and allces).

Naib Subedar Ram Chandra Verma (JC-641962W), 01 Mar
2006

Naib Subedar Rajinder Pal Singh (JC-641963Y), 01 Mar
2006

Naib Subedar Sharda Baksh Singh (JC-641964F), 01 Mar
2006

To be Naib Subedar : Clerk (GD)

Hav Rama Nand Singh (No. 6379012X now JC-663531K),
01 Sep 2005

Hav Rama Chandra Barik (No. 6379028H now JC-
663532M), 01 Sep 2005

Hav Bimal Chandra Borua (No. 6379063L now JC-663533P),
01 Sep 2005

Hav Balkar Singh (No. 6379016N now JC-663541N), 01 Sep
2005

Hav Gurdeep Singh (No. 6379099K now JC-663542W),
01 Sep 2005

Hav Upendra Kumar (No. 6379097Y now JC-663632X),
23 Sep 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 05 without
effect on pay & allowances).

Hav Dilwar Singh (No. 6379101W now JC-663633A),
18 Nov 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 05 without
effect on pay & allowances).

Hav Raj Singh (No. 6378546W now JC-663634H), 18 Nov
2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 05 without
effect on pay & allowances).

Hav Suresh Kumar (No. 6379038M now JC-663635L),
16 Nov 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 05 without
effect on pay & allowances).

Hav Lakhwinder Singh (No. 6377241K now JC-663636N),
10 Nov 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 05
without effect on pay & allowances).

Hav Unnikrishnan Achari P (No. 6379007M now JC-
663637W), 14 Nov 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 05
without effect on pay & allowances).

Hav Shri Prasad Yadav (No. 6376632H now JC-663638Y), 16 Nov 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Siva Rajan KK (No. 6378336H now JC-663639F), 16 Nov 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Suresh Kumar (No. 6379105M now JC-663640W), 10 Nov 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Jose Peramadathil Kuriyan (No. 6378907K now JC-663641Y), 10 Nov 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Jai Bhagwan (No. 6378937F now JC-663642F), 01 Nov 2005

Hav A B Siva Kumar (No. 6378897L now JC-663643K), 17 Nov 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Hare Krishna Singh (No. 6375551W now JC-663644M), 23 Nov 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Sampat Singh (No. 6378192Y now JC-663655Y), 01 Nov 2005

Hav Jiut Singh Yadav (No. 6377056W now JC-663656F), 06 Dec 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav V Krishnan (No. 6378576N now JC-663657K), 02 Dec 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Babu Rajan KT (No. 6378918W now JC-663658M), 01 Oct 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay & allowances).

Hav M D Saggir (No. 6378891K now JC-663659P), 28 Nov 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Gouri Shankar Panda (No. 6386069P now JC-663660K), 29 Nov 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Ajai Vir Singh (No. 6378453F now JC-663661M), 01 Dec 2005

Hav Gian Prakash (No. 6375698M now JC-663662P), 01 Dec 2005

Hav Ami Lal (No. 6378632F now JC-663663X), 01 Dec 2005

Hav Jaswant Singh (No. 6379127L now JC-663664A), 01 Dec 2005

Hav Yatindra Nath Yadav (No. 6379144L now JC-663665H), 01 Dec 2005

Hav Kaushal Kishori Giri (No. 6378934N now JC-663722Y), 22 Dec 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Ghan Shyam Giri (No. 6379130H now JC-663723F), 01 Dec 2005

Hav Naresh Chand (No. 6379133Y now JC-663724K), 08 Dec 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Ram Gopal (No. 6378134P now JC-663725M), 02 Dec 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Manoharan (No. 6379100N now JC-663726P), 26 Dec 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Shrut Singh Tomar (No. 63791431I now JC-663727X), 03 Jan 2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Prakashan P (No. 6471843W now JC-663728A), 01 Jan 2006

Hav Chander Mohan (No. 6379136M now JC-663729H), 01 Jan 2006

Hav Krushna Chandra Sinku (No. 6379137P now JC-663730X), 02 Jan 2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Ashok Prasad Khankriyal (No. 6379153M now JC-663731A), 01 Jan 2006

Hav Balwant Singh Rawat (No. 6376531P now JC-663732H), 04 Jan 2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Bipin Chandra Mangai (No. 6379155X now JC-663733L), 02 Jan 2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Mahendra Prasad (No. 6379154P now JC-663821F),
01 Jan 2006

Hav Rajbir Singh (No. 6377488L now JC-663822K), 31 Jan
2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 with-
out effect on pay & allowances).

Hav Gauri Shanker Singh (No. 6379156A now JC-663823M),
21 Jan 2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 with-
out effect on pay & allowances).

Hav Basdew Tiwari (No. 6379181L now JC-663824P),
01 Feb 2006

Hav Mewalal Chauhan (No. 6379173A now JC-663825X),
01 Feb 2006

Hav M Chinnaraj (No. 6378993A now JC-663826A), 04 Jan
2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005
without effect on pay & allowances).

Hav Shashi Prakash Rai (No. 6379158L now JC-663827H),
02 Feb 2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay & allowances).

Hav Jai Bhagwan (No. 6379169X now JC-663878W), 01 Feb
2006

Hav Ram Bhool Singh (No. 6379191H now JC-663879Y),
01 Mar 2006

Hav Ram Prakash Yadav (No. 6379148F now JC-663880N),
01 Mar 2006

Hav Laxman Prasad (No. 6379542M now JC-663881W),
01 Mar 2006

Hav Pradeep Kumar (No. 6379159N now JC-663919P),
02 Mar 2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay & allowances).

Hav Jayanta Singh (No. 6379184M now JC-663920K),
01 Mar 2006

Hav Gurbachan Singh (No. 6379608F now JC-663921M),
03 Mar 2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay & allowances).

(MECHANICAL TRANSPORT)

To be Naib Subedar (MT)

Hav Raj Kishore Singh (No. 13885584M now JC-663472H),
03 Aug 2005*

Hav Baban Tiwari (No. 13885156N now JC-663473L), 01 Jul
2005*

Hav Brigunath Singh (No. 13888881L now JC-663474N),
01 Aug 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005
without effect on pay & allowances).

Hav Bishan Singh (No. 13889529L now JC-663475W),
10 Aug 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 28 May 2005
without effect on pay & allowances).

Hav Ram Prakash Awasthi (No. 13886241H now JC-
663476Y), 01 Aug 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005
without effect on pay & allowances).

Hav Nemo Narayan Tripathi (No. 13886314K now JC-
663477F), 27 Jul 2005*

Hav Ajit Singh (No. 13886337L now JC-663478K), 25 Jul
2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 28 May 2005
without effect on pay & allowances).

Hav Raju M (No. 13886374Y now JC-663479M), 26 Jul 2005*

Hav Ramadhar Prasad (No. 13890141P now JC-663480F),
08 Aug 2005*

Hav Kaushal Kishore (No. 13890363K now JC-663481K),
25 Jul 2005*

Hav Ram Chandra Das (No. 13890763W now JC-663482M),
30 Jul 2005*

Hav Raj Kishore Yadav (No. 13885432L now JC-663483P),
26 Jul 2005*

Hav Kalyan Singh (No. 13889900X now JC-663484X),
27 Jun 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005
without effect on pay & allowances).

Hav Kundan Singh (No. 13889513H now JC-663485A),
23 Jul 2005*

Hav Iswar Dayal (No. 13890839L now JC-663486H), 27 Jul
2005*

Hav Sukumar Biswas (No. 13887123F now JC-663487L),
26 Jul 2005*

Hav Dharamvir Singh Dahiya (No. 13887149W now JC-
663488N), 26 Jul 2005*

Hav Ram Avtar (No. 13890896M now JC-663489W), 06 Aug
2005*

Hav Suresh Chand Mishra (No. 13890912Y now JC-
663490L), 30 Jul 2005*

Hav Raghubar Dayal (No. 13890926Y now JC-663491N),
30 Jul 2005*

Hav Lallan Sharma (No. 13890993K now JC-663492W),
03 Aug 2005*

Hav Shiv Nath Singh (No. 13887388L now JC-663493Y),
30 Jul 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Hira Lal Prajapati (No. 13887432K now JC-663494F),
01 Aug 2005

Hav Jagat Narayan Savita (No. 13891064X now JC-663495K), 27 Jul 2005

Hav Sher Bahadur Singh (No. 13891283Y now JC-663496M),
30 Jul 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Ram Kishore Yadav (No. 13891309H now JC-663497P),
01 Aug 2005

Hav Islam Mohammad (No. 13889596Y now JC-663498X),
01 Aug 2005

Hav Hawa Singh (No. 13885579F now JC-663499A), 16 Aug 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Anoop Singh (No. 13886204P) now JC-663500K),
01 Aug 2005

Hav Arjun Prasad Maurya (No. 13891181H now JC-663501M), 01 Aug 2005

Hav Durvijay Singh (No. 13894017L now JC-663502P),
01 Aug 2005

Hav Ram Ratan (No. 13887808A now JC-663503X), 01 Aug 2005

Hav Dhanna Ram (No. 13887827L now JC-663504A),
01 Aug 2005

Hav Dinesh Kumar Shukla (No. 13891350Y now JC-663505H), 01 Aug 2005

Hav Ram Gulap Choudhary (No. 13881254A now JC-663506L), 05 Aug 2005*

Hav Sita Ram Singh (No. 13886127L now JC-663507N),
09 Aug 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Munni Lal (No. 13886941W now JC-663508W), 01 Aug 2005

Hav Prayag Prasad (No. 13890698F now JC-663509Y),
01 Aug 2005

Hav Sant Ram (No. 13891200H now JC-663510N), 01 Aug 2005

Hav Lal Singh (No. 13887486L now JC-663511W), 01 Aug 2005

Hav Ajay Kumar Choudhary (No. 13890685K now JC-663512Y), 01 Aug 2005

Hav Sobaran Singh (No. 13885766A now JC-663513F),
02 Aug 2005*

Hav Satendra Singh Negi (No. 13891738K now JC-663514K), 02 Aug 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Satish Chander (No. 13891739M now JC-663515M),
01 Aug 2005

Hav Shiv Ram Sharma (No. 13891265W now JC-663516P),
01 Aug 2005

Hav Rajinder Singh Khara (No. 3382486H now JC-663517X),
04 Aug 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Bal Kishan Saini (No. 13891522H now JC-663518A),
04 Aug 2005*

Hav Sindhva Ramesh Bhikha Bhai (No. 13889279X now JC-663519H), 01 Aug 2005

Hav Pratul Pandit (No. 13889068P now JC-663520X),
02 Aug 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Vishram Singh (No. 13883658X now JC-663555N),
20 Sept 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Sury Bansh Singh (No. 13890872H now JC-663556W),
14 Aug 2005*

Hav Bachan Ram (No. 13891002X now JC-663557Y), 03 Aug 2005*

Hav Har Pal (No. 13887376W now JC-663558F), 14 Aug 2005*

Hav Ram Lochan Pandey (No. 13891275A now JC-663559K), 24 Sept 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Gopal Singh (No. 13890976K now JC-663560Y), 02 Sep 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Sita Ram (No. 13891205F now JC-663561F), 01 Aug 2005

Hav Jeewan Singh Rawat (No. 13887484A now JC-663562K), 01 Aug 2005

Hav Babulal Yadav (No. 13891256P now JC-663563M), 08 Aug 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Hira Lal Yadav (No. 13891403M now JC-663564P), 01 Aug 2005

Hav Becha Lal Bhagat (No. 13891426N now JC-663565X), 31 Aug 2005*

Hav Ram Kumar (No. 13887349M now JC-663566A), 10 Aug 2005*

Hav Junas Topno (No. 13884361H now JC-663567H), 19 Sept 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Harcharan Lal (No. 13891134F now JC-663568L), 01 Aug 2005

Hav Lakhbir Singh (No. 13887152W now JC-663569N), 01 Aug 2005

Hav Rabhwar Dayal (No. 13897078N now JC-663570H), 08 Sept 2005*

Hav Ram Lakhan Singh (No. 13891689M now JC-663571L), 19 Aug 2005*

Hav Ashok Kumar Sharma (No. 13889739N now JC-663572N), 19 Aug 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Raj Kumar Jaiswal (No. 13888344A now JC-663573W), 01 Aug 2005

Hav Sat Paul (No. 13885898N now JC-663574Y), 22 Aug 2005*

Hav Mahadev Kanji Gadia (No. 13887012K now JC-663575F), 22 Aug 2005*

Hav Satender Singh (No. 13883492F now JC-663576K), 15 Sept 2005*

Hav Kanhaiya Lal (No. 13885551F now JC-663577M), 30 Sept 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Damodar Prasad (No. 13882765M now JC-663578P), 19 Sept 2005*

Hav Mahendra Singh (No. 13894029A now JC-663579X), 18 Sept 2005*

Hav Vijay Tashwar Tiwari (No. 13894507Y now JC-663580M), 08 Sept 2005*

Hav Krishan Chand (No. 13888845A now JC-663581P), 19 Sept 2005*

Hav Laish Ram Tomba Singh (No. 13889628W now JC-663582X), 21 Sept 2005*

Hav Jagadish Giri (No. 13891091F now JC-663583A), 14 Sept 2005*

Hav Kamla Giri (No. 13887497X now JC-663584H), 08 Sept 2005*

Hav Bharat Pd Chaurisa (No. 13891239P now JC-663585L), 23 Sept 2005*

Hav Ram Kumar (No. 13885546W now JC-663586N), 14 Sept 2005*

Hav Maheshwer Mishra (No. 13886525M now JC-663587W), 17 Sept 2005*

Hav Rasumani (No. 13890972N now JC-663588Y), 15 Sept 2005*

Hav Ratneswar Baruah (No. 13883859N now JC-663589F), 15 Sept 2005*

Hav Rama Chandaran KK (No. 13885462H now JC-663590W), 26 Sept 2005*

Hav Bagmare Janardhan Jairam (No. 13883162H now JC-663591Y), 20 Sept 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sept 2005 without effect on pay & allowances).

Hav U M Rao (No. 13889050Y now JC-663592F), 01 Sept 2005

Hav Kailash Kishore (No. 13883143X now JC-663593K), 15 Sept 2005*

Hav Ram Pal Singh (No. 13891755K now JC-663594M), 06 Sept 2005*

Hav Umesh Chandra (No. 13890781N now JC-663595P), 06 Sept 2005*

Hav Sukhvir Singh (No. 13884260P now JC-663596X), 16 Sept 2005*

Hav Ram Sagar Singh (No. 13886119M now JC-663597A), 19 Sept 2005*

Hav Dileep Kumar (No. 13890717F now JC-663598H), 14 Sept 2005*

Hav Umesh Kumar (No. 13894161A now JC-663599L), 16 Sept 2005*

Hav Suresh Kumar (No. 13882870H now JC-663600P), 20 Sept 2005*

Hav Dhir Singh (No. 13889936W now JC-663601X), 13 Sep 2005

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Keshav Datt (No. 13889514L now JC-663602A), 01 Sep 2005

Hav Dev Muni Pal Yadav (No. 13889224N now JC-663603H), 05 Oct 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Kamala Prasad Barber (No. 13884467P now JC-663678A), 26 Dec 2005*

Hav Harindra Singh (No. 13884639Y now JC-663679H), 27 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Bajendra Pandey (No. 13882005K now JC-663680X), 26 Nov 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Swapan Biswas (No. 13885426X now JC-663681A), 15 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Rama Shankar Yadava (No. 13885595Y now JC-663683L), 18 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Satyapal Singh Chauhan (No. 13886290L now JC-663683L), 28 Jun 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav V Venkata Swamy (No. 13888558W now JC-663684N), 16 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Shyo Narayan Saini (No. 13887100A now JC-663685W), 12 Dec 2005*

Hav Shailendra Kumar Singh (No. 13890849P now JC-663686F), 29 Oct 2005*

Hav Ram Janam Yadav (No. 13885616K now JC-663687F), 27 Jul 2005*

Hav Venu Kumaran Nair G (No. 13891267F now JC-663688K), 18 Nov 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Tara Chand (No. 13891216N now JC-663689M), 28 Sep 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Nand Kishore (No. 13891036L now JC-663690F), 01 Nov 2005*

Hav Walaster Singh (No. 13887611K now JC-663691K), 24 Nov 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Churhoo Rajbhar (No. 13891434M now JC-663692M), 22 Oct 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Shyam Bihari Rai (No. 13883136F now JC-663693P), 31 Oct 2005*

Hav Vishwanathan PM (No. 13889979L now JC-663694X), 24 Sep 2005*

Hav Baban Singh (No. 13885187N now JC-663695A), 14 Sep 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Nishi Kr Das (No. 13886268A now JC-663696H), 17 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Krishan (No. 13894277W now JC-663697L), 21 Oct 2005*

Hav Krishna Sulcbhavikar (No. 13885631Y now JC-663698N), 14 Sep 2005*

Hav Jubair Ahmed (No. 13886691A now JC-663699W), 16 Dec 2005*

Hav Dharamvir Singh (No. 13891330L now JC-663700A), 01 Oct 2005*

Hav Ashok Kumar Singh (No. 13889916H now JC-663701H), 02 Oct 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Bijay Singh (No. 13884737Y now JC-663702L), 03 Dec 2005*

Hav Ram Chander (No. 13888121H now JC-663703N), 02 Dec 2005*

Hav Vimal Kumar Nikhare (No. 13890714N now JC-663704W), 06 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Keshav Dayal (No. 13891363W now JC-663705Y), 28 Oct 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Rajender Singh (No. 13886355N now JC-663706F), 24 Nov 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Dana Pati Mandal (No. 13889183P now JC-663707K), 01 Nov 2005.

Hav Kanwari Lal Meena (No. 13886680N now JC-663708M), 22 Dec 2005*.

Hav Nizamudin (No. 13886394M now JC-663709P), 27 Nov 2005*.

Hav Rohitash (No. 13887257A now JC-663710K), 24 Nov 2005*.

Hav Prasanta Mukherjee (No. 14808414Y now JC-663711M), 13 Dec 2005*.

Hav Sunil Tirkey (No. 13888985M now JC-663712P), 03 Dec 2005*.

Hav Ram Vakil (No. 13891130P now JC-663713X), 05 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Debasish Halder (No. 13886802M now JC-663714A), 19 Dec 2005*

Hav Paras Nath (No. 13887329Y now JC-663715H), 15 Dec 2005*

Hav Khiali Ram Sharma (No. 13879286A now JC-663716L), 21 Dec 2005*

Hav C Murugesan (No. 13879880F now JC-663717N), 21 Dec 2005*

Hav Satya Narayan Marot Rao (No. 13890395M now JC-663718W), 15 Dec 2005*

Hav Narinder Kumar (No. 13887801W now JC-663719Y), 20 Dec 2005*

Hav Fool Kumar Goswami (No. 13887430Y now JC-663720N), 16 Dec 2005*

Hav Kumbhar Vithal Janaba (No. 13885629F now JC-663721W), 12 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Babu Lal (No. 13885424N now), 29 Mar 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Vijai Kumar Prabhu Nath Tiwari (No. 13883849M now JC-663760P), 08 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Jagat Kumar Rai (No. 13884328L now JC-663761X), 29 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Ram Dhawan (No. 13877706W now JC-663762A), 18 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Raj Kumar (No. 13881699N now JC-663763H), 28 Dec 2005*

Hav Dande Venkateswara Rao (No. 13885647K now JC-663764L), 18 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Babu Lal Yadav (No. 13886304A now JC-663765N), 15 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Ram Milan Yadav (No. 13885868F now JC-663766W), 31 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Umed Singh (No. 13886302P now JC-663767Y), 13 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Kishun Prasad Sahu (No. 13891357H now JC-663768F), 19 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Kummar Pal Singh (No. 13885905Y now JC-663769K), 01 Oct 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Md Nazim (No. 13891701N now JC-663770Y), 15 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Abdul Salam (No. 13891723F now JC-663771F), 01 Oct 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Bhagwan Bhagat (No. 13886533L now JC-663772K), 31 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Hari Narayan Rai (No. 13891121N now JC-663773M), 22 Dec 2005*

Hav Somnath (No. 13889455K now JC-663774P), 19 Dec 2005*

Hav Biswanath Ghosh (No. 13884126K now JC-663775X), 10 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Teja Ram (No. 13891328N now JC-663776A), 01 Dec 2005

Hav Jaiveer Singh (No. 13885457X now JC-663777H), 03 Jan 2006*

Hav Paras Nath Singh (No. 13883606F now JC-663778L), 17 Dec 2005*

Hav Padama Charan Mohanti (No. 13890294Y now JC-663779N), 17 Dec 2005*

Hav Madan Singh (No. 13887485H now JC-663780H), 23 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Dam Chand (No. 13891349K now JC-663781L), 01 Dec 2005

Hav Raj Deo Singh (No. 13891185Y now JC-663782), 12 Jan 2006*

Hav Suresh Babu (No. 13889232M now JC-663783W), 20 Dec 2005*

Hav Nisar Ahmed (No. 13888681P now JC-663784Y), 26 Dec 2005*

Hav TPL Bhai Madhu Bhai (No. 13887575K now JC-663785F), 12 Jan 2006*

Hav Rajendra Prasad Napit (No. 13890857N now JC-663786K), 17 Jan 2006*

Hav Sudan Chandra Roy (No. 13889175W now JC-663787M), 05 Jan 2006*

Hav Vijay Pal Singh (No. 13886730N now JC-663788P), 03 Jan 2006*

Hav Md Fazal Ahmed (No. 13890871A now JC-663789X), 26 Dec 2005*

Hav P Thangamani (No. 13886940N now JC-663790M), 06 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Yash Pal (No. 13877588N now JC-663791P), 03 Jan 2006*

Hav CL Bhai Babu Rao (No. 13887297F now JC-663792X), 03 Jan 2006*

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Naib Sub (Clerk GD/SKsT)

Hav (SKT) Ramesh Kumar (No. 14489361P now JC-268648Y), 01 Sep 2005

Hav (SKT) Ramesh Chand Rathour (No. 14378425A now JC-268649F), 05 Sep 2005/01 Sep 2005*

Hav (SKT) Kameshwar Singh (No. 14378492L now JC-268650W), 01 Sep 2005

Hav (CLK) Ravinder Singh (No. 14477589Y now JC-268651Y), 30 Aug 2005/01 Aug 2005*

Hav (SKT) Ras Bihari Ghosh (No. 14378631K now JC-268652F), 10 Oct 2005/09 Sep 2005*

Hav (SKT) Shri Kant Prasad Sinha (No. 14378480W now JC-268653K), 08 Oct 2005/09 Sep 2005*

Hav (SKT) Kamlesh Kumar Singh (No. 14372474M now JC-268654M), 10 Oct 2005/09 Sep 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces).

Hav (SKT) Hari Sankar Bandopadhyay (No. 14489724N now JC-268708H), 24 Oct 2005/01 Oct 2005*

Hav (SKT) Pradyut Mukhopadhyay (No. 14489727F now JC-268768X), 01 Nov 2005

Hav (SKT) Muktar Ali Khan (No. 14489729M now JC-268709L), 01 Nov 2005

Hav (SKT) Tapan Kumar Nath (No. 14489731K now JC-268710A), 05 Nov 2005/01 Nov 2005*

Hav (SKT) Sukanta Deb Singha (No. 14489732M now JC-268711H), 01 Dec 2005

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces).

S. P. SHARMA
Under Secretary

No. 303, dated 23 May 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMY POSTAL SERVICE CORPS

Warrant Officers/Hav (Clks) To be Nb Sub/Clk (Postal)

WO Jagdish Chand Dhariwal (No. 8370751P now JC-834543A), 14 Sep 2005*

WO Vinod Narain Saxena (No. 8372230A now JC-834544H), 26 Jul 2005*

WO Gundu V Satyanarayana (No. 8373425X now JC-834545L), 26 Jul 2005*

WO Johnson Roy Alexander Menezes (No. 8373714M now JC-834546N), 05 Aug 2005*

WO M Murugan (No. 8373754N now JC-834547W), 20 Jul 2005*

WO Mehboob Alam Khan (No. 8372524N now JC-834548Y), 23 Sep 2005*

WO Sukhviri Singh (No. 8368332Y now JC-834549F),
26 Jul 2005*

WO Kedar Prasad Mishra (No. 8366712Y now
JC-834550W), 01 Sep 2005*

WO Ram Krit Paul (No. 8367300K now JC-834551Y),
30 Jul 2005*

WO Jyotirmoy Das (No. 8367687X now JC-834552F),
06 Sep 2005*

WO Jagannath (No. 8366231M now JC-834553K), 01 Aug
2005*

WO Jawahar Lal Jha (No. 8368230H now JC-834554M),
23 Aug 2005*

WO Mohan Singh (No. 8368700H now JC-834555P),
23 Aug 2005*

WO Ratan Singh Balowria (No. 8367797M now
JC-834556X), 02 Sep 2005*

WO V Chandrasekaran (No. 8367705P now JC-834557A),
02 Aug 2005*

WO Lal Mani (No. 8368405A now JC-834558H), 24 Aug
2005*

WO Lal Mani (No. 8371528X now JC-834559L), 22 Sep
2005*

WO Ramanand Giri (No. 8366063Y now JC-834560A), 01
Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Sub wef 28 May 2005
without effect on pay and allowances).

WO Roshan Lal (No. 8370285L now JC-834561H), 01 Sep
2005\$

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Sub wef 08 Jun 2005
without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Muthmohan AK (No. 8430825L now
JC-834562L), 26 Nov 2005@

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Sub wef 01 Jul 2005
without effect on pay and allowances)

WO Rati Ram Meena (No. 8371015H now JC-834563N), 16
Nov 2005%

WO Mohanan CK (No. 8373444H now JC-834564W),
13 Oct 2005%

WO Krishna Prasad Rajnath Ojha (No. 8368393W now JC-
834565Y), 24 Oct 2005%

WO BH Shivshankarappa (No. 8367737X now
JC-834566F), 02 Nov 2005%

WO Laxmi Narayan Balai (No. 8369990X now
JC-834567K), 21 Nov 2005%

WO Ghanshyam Singh (No. 8368847Y now JC-834568M),
17 Oct 2005%

WO Anil Kumar Srivastava (No. 8371152F now JC-834569P),
08 Nov 2005%

WO Mor Singh (No. 8367506F now JC-834570K), 08 Nov
2005%

WO Khyali Ram Meena (No. 8370486K now JC-834571M),
14 Nov 2005%

WO Hanama Gouda Biradar (No. 8373580Y now JC-
834572P), 16 Nov 2005%

WO Ram Prasad Yadav (No. 8371266M now JC-834573X),
13 Oct 2005%

WO Devendra Singh Yadav (No. 8372228H now JC-
834574A), 28 Dec 2005%

WO Shri Krishan Bhardwaj (No. 8369984K now JC-
834575H), 23 Nov 2005%

WO Harish Chandra Singh Shahi (No. 8370499F now JC-
834576L), 07 Oct 2005%

WO Khatri Atmanand Umang Lal (No. 8373521M now JC-
834577N), 27 Nov 2005%

WO Darshan Singh (No. 8371780W now JC-834578W),
08 Dec 2005%

WO Mohammad Yusuf Ali (No. 8372742M now JC-
834579Y), 28 Nov 2005%

WO Ram Naresh Prajapati (No. 8371437N now JC-834580N),
17 Oct 2005%

WO Shri Nath Maurya (No. 8372075K now JC-834581W),
05 Nov 2005%

WO Rameshwar Singh (No. 8371487Y now JC-834582Y),
11 Nov 2005%

WO Mehdi Hasan (No. 8368586W now JC-834583F),
09 Oct 2005%

WO Vinod Kumar Sharma (No. 8371050L now JC-834584K),
10 Nov 2005%

WO Sadhu Ram (No. 8368712X now JC-834585M), 17 Nov
2005%

WO Gokul Prasad Verma (No. 8371717F now JC-834586P),
05 Oct 2005%

WO Rishipal (No. 8372147H now JC-834587X), 08 Oct
2005%

WO Amarjit Singh (No. 8370766X now JC-834588A), 08
Oct 2005%

WO Vidyanand Singh (No. 8370775Y now JC-834589H), 24
Oct 2005%

Hav/Clk Vijay Kumar Gurung (No. 8430297M now JC-
834590X), 24 Oct 2005%

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Sub wef 12 Aug 2005
without effect on pay and allowances).

T. K. M. PILLAI
Under Secy.

**DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL
QUALITY ASSURANCE**

No. 304 dated 22 May 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

Shri Dharam Pal Singh, Senior Scientific Assistant (Gazetted) of HQ DGAQA as Junior Scientific Officer in HQ DGAQA wef 22 Mar 2006 (F/N).

Shri MS Rana, Senior Scientific Assistant (Gazetted) of OCRI Dehradun as Junior Scientific Officer in OCRI, Dehradun wef 23 Mar 2006 (F/N).

Shri RK Tripathy, Senior Scientific Assistant (Gazetted) of OCRI, Kanpur as Junior Scientific Officer in OCRI, Kanpur wef 24 Mar 2006 (F/N).

Shri Alka Bhargawa, Senior Scientific Assistant (Gazetted) of OCRI, Ghaziabad as Junior Scientific Officer in OCRI, Ghaziabad wef 22 Mar 2006 (A/N).

Shri DM Bajaj, For man of Dett, Itarsi as Junior Scientific Officer in Dett, Itarsi wef 25 Mar 2006 (F/N).

V. SETHUMADHAVAN
Under Secy.

No. 305, dated 24 May 2006—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

To be Lt Col

Dinesh Chandra Major (NTR-16509W), 16 Dec 2004
Krishan Dutt Nadda Major (NTR-16614M), 16 Dec 2004
Mohan Das C Major (NTR-16508N), 16 Dec 2004
Ranjit Singh Major (NTR-16567A), 16 Dec 2004
Roshan Lal Kotwal Major (NTR-16615P), 16 Dec 2004
Hari Dass Major (NTR-16683H), 16 Dec 2004
Puran Chand Major (NTR-16523H), 16 Dec 2004
Madhu Preet Singh Major (NTR-16650X), 16 Dec 2004
Mohammad Ataul Khayer Major (NTR-16621H), 16 Dec 2004
Tapaswi Satish Ratmakar Major (NTR-16623N), 16 Dec 2004
Munshi Abdul Kadar Major (NTR-16599H), 16 Dec 2004
Bimla Nath Bhattacharjee Major (NTR-16524L), 16 Dec 2004
Srinath B R Major (NTR-16598A), 16 Dec 2004
Debi Prasan Swain Major (NTR-16601P), 16 Dec 2004
Om Prakash Major (NTR-16525N), 16 Dec 2004
Bhag Mal Major (NTR-16594K), 16 Dec 2004

Prabhat Kumar Mukhopadhyay Major (NTR-16586L), 16 Dec 2004

Som Mittar Kashab Major (NTR-16529K), 16 Dec 2004

Prakasan M N Major (NTR-16528F), 16 Dec 2004

Devender Singh Gahlawat Major (NTR-16507L), 16 Dec 2004

Balwinder Singh Bajwa Major (NTR-16624W), 16 Dec 2004

Hari Har Prasad Singh Major (NTR-16600M), 16 Dec 2004

Ganesh Kumar Pattra Panda Major (NTR-16526W), 16 Dec 2004

Satya Narain Sharma Major (NTR-16597X), 16 Dec 2004

Bhagwan Yadav Major (NTR-16655W), 16 Dec 2004

Arbuj Tanaji Major (NTR-16572L), 16 Dec 2004

Rang Rao Major (NTR-16573N), 16 Dec 2004

Daya Ram Yadav Major (NTR-16575Y), 16 Dec 2004

Patil Haresh Namdev Major (NTR-16577K), 16 Dec 2004

Thomas P T Major (NTR-16579P), 16 Dec 2004

Tilak Gogoi Major (NTR-16580K), 16 Dec 2004

Balwan Singh Major (NTR-16583X), 16 Dec 2004

Narinder Singh Major (NTR-16584A), 16 Dec 2004

Paulose M O Major (NTR-16604H), 16 Dec 2004

Chandrasekharan M K Major (NTR-16606N), 16 Dec 2004

Durvesula Subbaiah Major (NTR-16625Y), 16 Dec 2004

Birender Singh Major (NTR-16626F), 16 Dec 2004

Yesh Pal Singh Major (NTR-16527K), 16 Dec 2004

Lekh Chand Katoch Major (NTR-16632P), 24 Jul 2004

Ravindra Singh Major (NTR-16634A), 24 Jul 2004

Ragothaman V Major (NTR-16635H), 24 Jul 2004

Shanti Bhushan Das Major (NTR-16549X), 16 Dec 2004

Achuthan M Major (NTR-16556N), 16 Dec 2004

Roshan Lal Gangal Major (NTR-16558Y), 16 Dec 2004

Vinod Kumaran TT Major (NTR-16651A), 16 Dec 2004

Sangappa Hadpad Major (NTR-16656Y), 16 Dec 2004

Jaimal Singh Major (NTR-16658K), 16 Dec 2004

Jit Singh Major (NTR-16653L), 16 Dec 2004

Nagendra Rai Major (NTR-16652H), 16 Dec 2004

Gajraj Singh Major (NTR-16649H), 16 Dec 2004

Mohan Singh Major (NTR-16574W), 16 Dec 2004

Gorakh Nath Singh Major (NTR-16654N), 16 Dec 2004

Dharam Chand Sharma Major (NTR-16657F), 16 Dec 2004

Suraj Pal Singh Negi Major (NTR-16553A), 16 Dec 2004
 Ramesh Chand Dhulia Major (NTR-16554H), 16 Dec 2004
 Suresh Babu P P Major (NTR-16555L), 16 Dec 2004
 Ashok Kumar Major (NTR-16608Y), 16 Dec 2004
 Ram Kumar Singh Bhadauria Major (NTR-16622L),
 16 Dec 2004
 Raghuraman Major (NTR-16659M), 16 Dec 2004
 Om Prakash Major (NTR-16543W), 16 Dec 2004
 Shiv Narayan Tiwari Major (NTR-16589Y), 16 Dec 2004
 Satyendra Kumar Singh Major (NTR-16684L), 16 Dec 2004
 Frederick Bhagwandas Appadurai Major (NTR-16595M),
 16 Dec 2004
 Virender Singh Major (NTR-16640N), 16 Dec 2004
 Uma Shanker Dubey Major (NTR-16647X), 16 Dec 2004
 Ashok Kumar Baukhandi Major (NTR-16557W), 16 Dec
 2004
 Mahkar Singh Nagar Major (NTR-16570A), 16 Dec 2004
 Vidya Sagar Khajuria Major (NTR-16578M), 16 Dec 2004
 Surath Kumar Raj Major (NTR-16585H), 16 Dec 2004
 Selvanayangam Samsu Major (NTR-16605L), 16 Dec 2004

Major To Lt Col (TS)

WITH EFFECT FROM 17 MAY 2000

Mohinder Rai Major (NTR-16373Y), AMC/NT

To be Major

P Murugesan Capt (NTR-16638W), 16 Dec 2004
 Santosh Kumar Shrivastav Capt (NTR-16642Y), 16 Dec 2004
 Narendra K P Capt (NTR-16645M), 16 Dec 2004
 Sahajvir Singh Capt (NTR-16660F), 16 Dec 2004
 Ishwar Dass Capt (NTR-16662M), 16 Dec 2004
 Shyam Singh Capt (NTR-16661K), 16 Dec 2004
 Surendran B Capt (NTR-16664X), 16 Dec 2004
 Gunakara Giri Capt (NTR-16665A), 16 Dec 2004
 Bhagwan Singh Capt (NTR-16663P), 16 Dec 2004
 Devendra Kumar Sharma Capt (NTR-16666H), 16 Dec 2004
 S Mani Capt (NTR-16603A), 16 Dec 2004
 Y Sugumar P Capt (NTR-16636L), 16 Dec 2004
 Satindra Kumar Capt (NTR-16641W), 16 Dec 2004
 Jaswant Singh Capt (NTR-16643F), 16 Dec 2004
 S S Panwar Capt (NTR-16670L), 19 Apr 2005

To be Capt

Simon P L Capt (NTR-16672W), 16 Dec 2004
 Rajesh Chandra Capt (NTR-16674F), 16 Dec 2004

MD Patil Capt (NTR-16673Y), 16 Dec 2004
 D S Chauhan Capt (NTR-16675K), 16 Dec 2004
 Vijay Kumar Capt (NTR-16677P), 16 Dec 2004
 Vidyut Mukherjee Lt (NTR-16686W), 16 Dec 2004
 Mahipal Lt (NTR-16690Y), 16 Dec 2004
 Shyam Singh Lt (NTR-16694P), 19 May 2005

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Capt to Major

(MS-14411K) Capt Anjali Rani, 01 Apr 2003
 (MS-14489P) Capt Manish Kumar, 19 Jun 2003
 (MS-14492P) Capt Sudip Chowdhury, 19 Dec 2003
 (MS-14499Y) Capt Girish Kumar Pandey, 12 Feb 2004
 (MS-14691H) Capt Anand Gupta, 09 Dec 2004
 (MS-14113N) Capt Rajdeep Singh, 22 Dec 2004
 (MS-14128W) Capt Swadhin Menaria, 16 Jan 2005
 (MS-14177Y) Capt Anita Victor, 22 Jan 2005
 (MS-14198P) Capt Rajeev K, 24 Jan 2005
 (MS-14202M) Capt Ashim Roy, 31 Jan 2005
 (MS-14204X) Capt Yashin Ansari, 05 Feb 2005
 (MS-14205A) Capt Rimil Herenz, 05 Feb 2005
 (MS-14259F) Capt Anand Vijay, 08 Feb 2005
 (MS-14787L) Capt Biraj Gogoi, 17 Feb 2005
 (MS-14157L) Capt Srimannarayan Mishra, 01 Mar 2005
 (MS-14223) Capt (Mrs) Sonal Dixit, 01 Mar 2005
 (MS-14788N) Capt Shavinder, 04 Mar 2005

Flt Lt to Sqd Ldr

(MS-13494N)/(AF-26048H) Flt Lt (Miss) Renu Gaur,
 15 Apr 2001
 (MS-14110A)/(AF-26038B) Flt Lt (Mrs) Yashodha Koppal,
 03 Oct 2001
 (MS-14152M)/(AF-26074K) Flt Lt Nishant Dada Rao
 Mendhe, 24 Jul 2004
 (MS-14164F)/(AF-26468H) Flt Lt Mishi Bharti, 06 Dec
 2004
 (MS-14251P)/(AF-26473R) Flt Lt Sga pa Shankar Rao,
 05 Jul 2005

(MS-14253A)/(AF-26476G) Flt Lt Arvind Kumar Gupta, 28 Aug 2005

(MS-14444P)/(AF-26905A) Flt Lt Madhulika Jain, 12 Sept 2005

(MS-14273N)/(AF-26496S) Flt Lt Thyelnai Dawn Khaling, 21 Jan 2006

(MS-14391F)/(AF-26493G) Flt Lt Yogesh Kumar, 21 Jan 2006

(MS-14635K)/(AF-26485H) Flt Lt Satyajit Pati, 21 Jan 2006

Surg Lt to Surg Lt Cdr

(MS-14577L)/(75815F) Surg Lt Smita Dutta, 11 Mar 2004

(MS-14230Y)/(75751K) Surg Lt Manoranjan Padhi, 12 Mar 2005

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAFMS (Pers)

(ARMY BRANCH)

No. 306, dated the 24th May 2006—The President is pleased to permit the under mentioned officers to retire from Army Service on attaining the age of superannuation :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

(NTR-16647X) Major Uma Shanker Dubey, 31 Jul 2005

(NTR-16616X) Major Tara Dutt Bhatt, 31 Jul 2005

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAFMS (Pers)

(ARMY BRANCH)

No. 307, dated the 24th May 2006.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

(CORRIGENDUM)

The following date of Promotion and Seniority under the Heading 1st Appointment DGNs vetted and passed vide your letter No. 3001/AFL/DGN-2 dated 03 Apr 2000 and published on 23 Sept 2000 may be amended as under in respect of NTR 16659-M Raghu Raman K.

'For'

With effect from 15 Dec 97

'Read'

With effect from 15 Dec 87

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAFMS (Pers)